



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 8—नवम्बर 14, 2008 (कार्तिक 17, 1930)  
No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 8—NOVEMBER 14, 2008 (KARTIKA 17, 1930)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

### [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 नवम्बर 2008

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(अल्पकालीन कमीशन)

कैप्टन के पद पर (परख पर)

सं. 531, दिनांक 17 अक्टूबर 2008—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री ग. के. गंभीर को रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में दिनांक 04 अगस्त, 2008 (पूर्वाह्न) से जुलाई, 2009 तक या अगले आदेशों तक, उप वित्तीय सलाहकार (उप सचिव) के रूप में नियुक्त करते हैं।

रमेश कुमार  
निदेशक (वित्त/स्था.)

(डीएस-12232एल) पुलिन बिहारी वर्मा, 01 फरवरी 2007

(सेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जाती है इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए छः महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता भी शामिल है, जो उपादान के लिए नहीं गिनी जाएगी।)

05 अप्रैल 2008 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहाँ तक इसका सम्बन्ध उपर्युक्त अफसर से है, रद्द किया जाता है।

विद्याधरन एस (डीएस-12252वाई), ए डी कोर, एम डी एस, चिन्नई, 19 अक्टूबर 2007

थल सेना विभाग

सं. 532, दिनांक 17 अक्टूबर 2008—थल सेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति सहर्ष निर्मललिखित नियुक्ति करते हैं :-

(वेतन और उद्योगों के लिए, खेदना 19 अक्टूबर 2004 में दो जर्सी है। इसमें एम ही एम के लिए 36 पहिले पहले से दो गई खेदना भी शामिल है, जो उद्योग के लिए नहीं गिनी जायेंगे।)

12 अक्टूबर 2008 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में जहाँ तक इसका सम्बन्ध उपर्युक्त अफसर से है, यह क्रिया जाता है।

श्री मंगल अन्देश 15 79 व उसमें जारी मंगलधर्म के अन्तर्गत महर्षि निम्नलिखित नियुक्त 5 वर्ष के लिए करते हैं :-

#### नियमित सेवा

सेनिक दल (चिकित्सा क्रम)

(अन्यकालीन कर्षण)

कैप्टन के पद पर पर्यटन

(डॉक्टर 118999) जो के अफ्रीका, ए डी बोर, सी डी एम (गुवाटरी), 19 फरवरी 1997

(वेतन और उद्योगों के लिए, खेदना 19 अक्टूबर 1994 में दो जर्सी है। इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 10 पहिले पहले से दो गई खेदना भी शामिल है, जो अस्पताल के लिए नहीं गिनी जायेंगे।)

रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 17 जनवरी 1998 में जहाँ तक इसका सम्बन्ध उपर्युक्त अफसर से है, यह क्रिया जाता है।

डॉ के तनेजा

मंगल अन्देश

मंगल अन्देश

#### वर्तमान मुख्यलय

म. 553, दिनांक 20 अक्टूबर 2008 (राष्ट्रपति, वर्तमान में निम्नलिखित भी उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तिथि में अस्पताल कर्नाट (जोडी-कफनाफे) के रूप में नियुक्त करते हैं :

मानान्वय दूर

नाम	नियुक्ति	कार्य आरम्भ तिथि	वैयक्तिक सेवा
1	2	3	4

सर्वश्रेष्ठ

नितिन शर्मा  
महायक कर्नाट (मोडी-मंगल)  
वेतनमान  
रपम 8,000-  
375-13,500-  
में नियुक्त दो वर्षों  
को अधिभूतक  
भारतीयक्षेत्रीय रहेंगे।

अक्षय कुमार मठपाल - यथोक्त - यथोक्त - 0715-एम्

श्रीनाथ जी - यथोक्त - यथोक्त - 0713-एम्

1	2	3	4
अश्वनी कुमार	महायक कर्नाट (मोडी-मंगल) वेतनमान रपम 8,000- 375-13,500- में नियुक्त दो वर्षों को अधिभूतक भारतीयक्षेत्रीय रहेंगे।	25 जून 07	0714-यो
दीप चन्द मठपाल	यथोक्त-	-यथोक्त-	0715-एम्
विलीम चक्रवर्ती	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0716-मी
पवन कुमार यादव	यथोक्त-	-यथोक्त-	0717-डी
गोकुल जे	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0718-ई
अक्षय कुमार अशिक	यथोक्त-	-यथोक्त-	0719-जे
रोनाल्ड गैंगमो	यथोक्त-	यथोक्त-	0720-एल
प्रवीण कुमार एल	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0721-एम
अश्विन दीनार आगरे	यथोक्त-	-यथोक्त-	0722-फो
समर सिंह संधू	यथोक्त-	-यथोक्त-	0723-क्यू
रोहितेश कुमार	यथोक्त-	02 जुलाई 07	0724-एम
विजय टंडा	-यथोक्त-	25 जून 07	0725-बी
गकेश कुमार	-यथोक्त-	04 जुलाई 07	0726-एक्स
डेवी	यथोक्त-	04 अगस्त 07	0727-सी
श्रुति स्मिता त्रिपाठी	यथोक्त-	-यथोक्त-	0728-छो
सुनीता शर्मा	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0729-ई
कजु माला सिंह	यथोक्त-	05 अगस्त 07	0730-जे
शक्ति सिंह शेखावत	-यथोक्त-	23 दिसम्बर 07	0731-एल
श्री राम	यथोक्त-	-यथोक्त-	0732-एम
रवि कुमार	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0733-पी
कुन्दन सिंह	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0734-क्यू
सौरभ	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0735-एम
कर्ण किशोर	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0736-एल
अभिषेक गंगुली	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0737-एक्स
मुमित धोमन	यथोक्त-	-यथोक्त-	0738-पी
हिमंशु मिश्रा	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0739-डी
अमित ध्यानी	यथोक्त-	-यथोक्त-	0740-ई
शरद शंकर पांडे	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0741-जे
अनुप सिंह	-यथोक्त-	यथोक्त-	0742-एल
सुधीर शुक्ला	-यथोक्त-	-यथोक्त-	0743-एम
प्रवीण कुमार खाटकर	-यथोक्त-	31 दिसम्बर 07	0744-पी

## तकनीकी

1	2	3	4
गुलाब सिंह	सहायक कमांडेंट (तकनीकी) वेतनमान रुपए 8,000-275- 13,500/- में नियुक्त, वे दो वर्षों को अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे।	24 अगस्त 07	4149-डी
एस के कालरा	-यथोक्त-	-यथोक्त-	4150-ई
बी बी पतांगरे	-यथोक्त-	-यथोक्त-	4151-जे
आर बी सिंह	-यथोक्त-	-यथोक्त-	4152-एल
बी एस सिकरवार	-यथोक्त-	-यथोक्त-	4153-एम
आर के सिंह	-यथोक्त-	-यथोक्त-	4154-पी
मोहित कुमार	-यथोक्त-	10 अगस्त 07	5101-क्यू
जमडाडे सांजरे सुरेश	-यथोक्त-	03 अगस्त 07	4155-क्यू
मशहूदी बैन्किया	-यथोक्त-	01 फरवरी 08	4156-एस
रितेश धीर	-यथोक्त-	23 फरवरी 08	5102-एस

टी सी शर्मा  
अवर सचिव (त.र.)

## रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 534. दिनांक 20 अक्टूबर 2008--राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से 8,000-275-13,500/- रुपए के वेतनमान में दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में अस्थायी वैज्ञानिक 'बी' (ग्रुप 'ए') के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	स्थापना/प्रयोगशाला	नियुक्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	श्री पारस नाथ चर्मा	एआरडीई, पुणे	27.04.2006
2.	श्री विनय कुमार	एआरडीई, पुणे	27.04.2006
3.	श्री कमलेश कुमार	एआरडीई, पुणे	14.04.2005
4.	श्री सुशील कुमार बिशोई	एआरडीई, पुणे	14.06.2005
5.	श्री भास्कर राय सज्जा	एएसएल, हैदराबाद	27.04.2006
6.	मिस. अर्चना	डीएफआरएल, मैसूर	10.08.2006
7.	श्री प्रणव कुमार शंडर	डीएलआरएल, हैदराबाद	02.11.2006

1	2	3	4
8.	श्री कैलाश मेशराम	डीएलआरएल, हैदराबाद	02.11.2006
9.	श्री मनीष कुमार दुवे	डीआरडीएल, हैदराबाद	05.09.2007
10.	श्री सिदार्थ गोगोई	एचईएमआरएल, पुणे	13.06.2005
11.	श्री मृतुंजय कुमार सिंह	एचईएमआरएल, पुणे	18.12.2006
12.	श्री कमलेश कुमार	आईएनएस शिवाजी, पुणे	27.04.2006
13.	श्री सुनील कुमार	एनएसटीएल, विशाखापत्तनम	02.11.2006
14.	श्री एस रमेश	आरसीआई, हैदराबाद	27.04.2006
15.	श्री अनुपम दीप वर्मा	आरसीआई, हैदराबाद	02.11.2006
16.	श्री अनिल कुमार मोणा	आरसीआई, हैदराबाद	02.11.2006
17.	श्री अमर सिंह	आरसीआई, हैदराबाद	02.11.2006
18.	श्री धनंजय कुमार उपाध्या	एसएजी, दिल्ली	14.06.2005
19.	श्री डी प्रफुल्ला तुकारामजी	वीआरडीई, अहमदनगर	27.04.2006

2. दिनांक 19 अगस्त 2008 के डी जी एन संख्या डीओपी/08/82619/डीजीएन/वैज्ञानिक 'बी' के क्रम संख्या 63 में दर्शाये गये श्री अमर सिंह (उपर्युक्त क्रम संख्या 17) से संबंधित प्रविष्टि हटायी गयी समझी जाए।

टी अब्दुर्रज्जाक  
संयुक्त निदेशक

(सेना शाखा)

सं. 535, दिनांक 20 अक्टूबर 2008--राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी आयोग

निम्नलिखित जेण्टलमैन कैडेट, जो कि 14 यू ई एस पाठ्यक्रम के हैं, को 10 जून 2006 (पूर्वाह्न) से सेना अनुदेश 2/93, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत लेफ्टिनेंट के पद पर स्थाई आयोग अनुदान किया जाता है। उन्हें 13 जून 2004 से सेना अनुदेश 2/93 यथासंशोधित के अन्तर्गत दो वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा उन्नति के लिए दी जाती है :--

यू/605 योगेश चंद्र (आई सी 68463एन) इंजीनियर्स की वरिष्ठता टी/6345 सुजित एस जोशी (आई सी 68462एल) ईएमई के नौचे प्रकाशित किये जायें, जिनका नाम भारत के राजपत्र में दिनांक 07 जुलाई 2007 को प्रकाशित हो चुका है।

१० कुमार, इह, ईएमई  
 ११ कुमार अग्निहोत्री, आदी  
 १२ गङ्गा, इन्फेन्ट्री  
 १३ सिंह, ईएमई  
 १४ भाग्य चक्राण, ईजीनियर्स  
 १५ गिर, इन्फेन्ट्री  
 १६ अंगवान, आदी  
 १७ दीपक री नार्थविक, इन्फेन्ट्री  
 १८ ली, ईजीनियर्स  
 १९ अना, आदी  
 २० मयन गंगारोव सिंह, इन्फेन्ट्री  
 २१ कुमार आदय, ईएमई  
 २२ सिंह कंगर, इन्फेन्ट्री  
 २३ सिंह नगर, इन्फेन्ट्री  
 २४ मोहान्ती, इन्फेन्ट्री  
 २५ नांदव्य त्यागी, आदी  
 २६ अहल, एएडी  
 २७ श्रीवास्तव, इन्फेन्ट्री  
 २८ गौरी सिंह शेखावत, इन्फेन्ट्री  
 २९ राजपेयी, इन्फेन्ट्री  
 ३० द्विवेदी, एडोर्स  
 ३१ बल्लव, इन्फेन्ट्री  
 ३२ अमा, इन्फेन्ट्री  
 ३३ री कामत, ईजीनियर्स  
 ३४ कुमार, ईएमई  
 ३५ सिंह, इन्फेन्ट्री  
 ३६ अगोस्त्य, इन्फेन्ट्री  
 ३७ गिर, आदी  
 ३८ सिंह, इन्फेन्ट्री

(एसएस-42933डब्ल्यू) अभय शर्मा, इन्फैन्ट्री	(एसएस-42968एम) विराट मिश्रा, इन्फैन्ट्री
(एसएस-42934वाई) शैलेंद्र कुमार, एसी	(एसएस-42969पी) मेघंजय साहु, इन्फैन्ट्री
(एसएस-42935एफ) गजेंद्र पांचाल, इन्फैन्ट्री	(एसएस-42970के) शर्मा कपिल कुमार, इंजीनियर्स
(एसएस-42936के) आनंद यादव, आर्टी	(एसएस-42971एम) बी बी निरंथ, इन्फैन्ट्री
(एसएस-42937एम) हिमांशू ध्यानी, एसएसओ	(एसएस-42972पी) नरेंद्र सिंह मेहरा, ईएमई
(एसएस-42938पी) सरबजीत सिंह रीन, इन्फैन्ट्री	(एसएस-42973एक्स) एच सैमिनलेन, इन्फैन्ट्री
(एसएस-42939एक्स) अरुण राहड़, सिग्नल	(एसएस-42974ए) जयवीर सिंह, इन्फैन्ट्री
(एसएस-42940एम) उर्गेन दोर्जी भुटिया, इन्फैन्ट्री	(एसएस-42975एच) कुणाल त्यागी, इन्फैन्ट्री
(एसएस-42941पी) कार्तिकेयन पी, आर्टी	(एसएस-42976एल) राजेश कुमार श्रीवास्तव, इन्फैन्ट्री
(एसएस-42942एक्स) प्रभाकर डी, इन्फैन्ट्री	(एसएस-42977एन) कबुुरि हरीष बाबू, इंजीनियर्स
(एसएस-42943ए) जैपाल सिंह संधु, इन्फैन्ट्री	(एसएस-42978डब्ल्यू) शमिंदर सिंह सिद्धू, इन्फैन्ट्री
(एसएस-42944एच) उदय कुमार सिंह, ईएमई	(एसएस-42979वाई) श्रीकांत संगमेश्वरणा, इन्फैन्ट्री
(एसएस-42945एल) कमल ठाकुर, इन्फैन्ट्री	(एसएस-42980एन) देवेन्द्र यादव, आर्टी
(एसएस-42946एन) प्रमोद शौकोन, इन्फैन्ट्री	(एसएस-42981डब्ल्यू) निनाद शरद जाधव, इन्फैन्ट्री
(एसएस-42947डब्ल्यू) रवि राय भयाना, इंजीनियर्स	(एसएस-42982वाई) राजदीप सिंह, सिग्नल
(एसएस-42948वाई) राणा रविंदर धवन, आर्टी	(एसएस-42983एफ) भाटी सिद्धराज सिंह, इन्फैन्ट्री
(एसएस-42949एफ) शेखर सिंह, इंजीनियर्स	(एसएस-42984के) समर पाल, इन्फैन्ट्री
(एसएस-42950डब्ल्यू) रवि प्रताप सिंह, इंजीनियर्स	(एसएस-42985एम) अनुपम अवस्थी, इन्फैन्ट्री
(एसएस-42951वाई) शक्ति सिंह परमार, ईएमई	(एसएस-42986पी) सिद्धार्थ सिंह, एण्डी
(एसएस-42952एफ) इंद्रजीत मलिक, आर्टी	(एसएस-42987एक्स) वरुण कुमार सिंह, एओसी
(एसएस-42953के) अभिनव जोशी, इन्फैन्ट्री	(एसएस-42988ए) सौम्य दुवे, मेक
(एसएस-42954एम) मनीष शाहिल्या, आर्टी	(एसएस-42989एच) अंकुश अग्निहोत्री, सिग्नल
(एसएस-42955पी) अशोक कुमार, इंजीनियर्स	(एसएस-42990एक्स) अशोक चौहान, इन्फैन्ट्री
(एसएस-42956एक्स) संदीप सिंह बैनवाल, इन्फैन्ट्री	(एसएस-42991ए) रोहित शर्मा, इन्फैन्ट्री
(एसएस-42957ए) अभिनव प्रताप सिंह, इन्फैन्ट्री	(एसएस-42992एच) सुशील तनेजा, आर्टी
(एसएस-42958एच) कुलदीप चौधरी, सिग्नल	(एसएस-42993एल) जसनीत सिंह बकशी, आर्टी
(एसएस-42959एल) खेमनंद सिंह, इन्फैन्ट्री	(एसएस-42994एन) नवीन कुमार, इन्फैन्ट्री
(एसएस-42960ए) कुलकर्णी ऋषिकेश चंद्रकांत, इन्फैन्ट्री	(एसएस-42995डब्ल्यू) क्षितिज धामी, मेक
(एसएस-42961एच) चरणजीत सिंह आलूवालिया, एओसी	(एसएस-42996वाई) अभिषेक मुखर्जी, एओसी
(एसएस-42962एल) मनोहन कृष्णन, इन्फैन्ट्री	(एसएस-42997एफ) अविश सिंह तूर, इन्फैन्ट्री
(एसएस-42963एन) राहुल कटोच, इंजीनियर्स	(एसएस-42998के) रोहन चटर्जी, इंजीनियर्स
(एसएस-42964डब्ल्यू) सिंह विवेक वब्बन, सिग्नल	(एसएस-42999एम) राहुल तिवारी, ईएमई
(एसएस-42965वाई) विक्रम मेहरा, आर्टी	(एसएस-43000एन) टेसिलो तेप, इन्फैन्ट्री
(एसएस-42966एफ) बालहंस गुप्ता, इन्फैन्ट्री	(एसएस-43001डब्ल्यू) सेटिंगुसुंग जामिर, इन्फैन्ट्री
(एसएस-42967के) पंकज शर्मा, आर्टी	(एसएस-43002वाई) सायक चौधरी, इन्फैन्ट्री

(एसएस-43004एच) दिग्विजय सिंह, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-43004एच) राजीव श्रीचंद्रन, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-43005एच) लक्ष्मण सिंह सोनी, जेएजी  
 (एसएस-43006एच) आशिष शाही, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-43007एच) दीपक कुमार, एसी  
 (एसएस-43008एच) मृग नागवण मिश्र, एसएस  
 (एसएस-43009एच) अश्विन कुमार त्याग आर्य  
 (एसएस-43010एच) समीर नायर, एसी  
 (एसएस-43011एच) प्रदीप त्रिवेदी, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-43012एच) नन्कर आर्भत मर्हार, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-43013एच) विजित शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-43014एच) राव कुमार वेङ्कट सिंह, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-43015एच) पी एस जयकुमार, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-43016एच) चरण प्रियल, आरटी  
 (एसएस-43017एच) मोहन चक्रवर्ती, ईएमई  
 (एसएस-43018एच) कपिल दीप सिंह, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-43019एच) अरुण कुमार, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-43020एच) रमण राव, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-43021एच) रंजित मेहता, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-43022एच) पी प्रदीप रवि कुमार, एआई

निम्नलिखित 177 जनसंख्या कीटम्, जो 30000000 से अधिक-84 कार्यक्रम के हैं, के वः नाम का समय जोकि 22 सितम्बर 2007 को शुरू हुआ था, लै, जो पद पर पूरा कर दिया है। उनके जो किनांक 22 सितम्बर 2007 से पश्चिम के लिए लै, के पद पर जनसंख्या-मेवा आयोग विशेष मंत्रालय 2007-08, बंधनकारी, जो जनसंख्या 2007 किया जा रहा है:-

एस एस सी. नाम आर्भ मर्मार

(एसएस-42655एच) कनिष्क गौर, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-42656एच) अशुतोष त्रिपाठी, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-42657एच) नवीन नौराज, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-42658एच) अमरपाल सिंह आर्य, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-42659एच) राजेश पाण सिंह, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-42660एच) अमित शर्मा, ईजीएम  
 (एसएस-42661एच) अरुण जी. राय  
 (एसएस-42662एच) राज कुमार मिश्र, मेवा  
 (एसएस-42663एच) राजकुमार शर्मा, एसी

(एसएस-42664एच) मनोज शर्मा, जेएजी  
 (एसएस-42665एच) एस शक्ति कोमल, आरटी  
 (एसएस-42666एच) विजय ओडगाम, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-42667एच) अजय शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-42668एच) अंशु मोहन, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-42669एच) राजेश सिंह फर्नांडी, ईजीएम  
 (एसएस-42670एच) अमित सिंह चौहान, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-42671एच) समीर शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-42672एच) अमित शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-42673एच) सत्यम मंगलमूर्ती गढ़, एआई  
 (एसएस-42674एच) सुनील नानािया, ईजीएम  
 (एसएस-42675एच) राजेश अम शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-42676एच) अमित शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-42677एच) अमित सिंह नेगी, ईजीएम  
 (एसएस-42678एच) अमित शर्मा, आरटी  
 (एसएस-42679एच) अमित सिंह शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-42680एच) अमित शर्मा, आरटी  
 (एसएस-42681एच) अमित शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-42682एच) अमित शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-42683एच) अमित शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-42684एच) अमित शर्मा, आरटी  
 (एसएस-42685एच) अमित शर्मा, एसी  
 (एसएस-42686एच) अमित शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-42687एच) अमित शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-42688एच) अमित शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-42689एच) अमित शर्मा, आरटी  
 (एसएस-42690एच) अमित शर्मा, जेएजी  
 (एसएस-42691एच) अमित शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-42692एच) अमित शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-42693एच) अमित शर्मा, एसएस  
 (एसएस-42694एच) अमित शर्मा, आरटी  
 (एसएस-42695एच) अमित शर्मा, एसएस  
 (एसएस-42696एच) अमित शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 (एसएस-42697एच) अमित शर्मा, सिंगल

(एसएस-42698एच) मनीष कुमार, आर्टी	(एसएस-42732एक्स) अरूण जार्ज अब्राहम, इन्फैन्ट्री
(एसएस-42699एल) अमन कुमार नैण, इन्फैन्ट्री	(एसएस-42733ए) एस माणिकवेल्, एएडी
(एसएस-42700पी) शिवेन्द्र सिंह, ईएमई	(एसएस-42734एच) हरीश यादव, इन्फैन्ट्री
(एसएस-42701एक्स) धुवनेश्वर एस राट्टर, इन्फैन्ट्री	(एसएस-42735एल) अमन मालियाकन, इन्फैन्ट्री
(एसएस-42702ए) जन्मेजय सिंह, इन्फैन्ट्री	(एसएस-42736एन) संजय गुलेरिया, एसी
(एसएस-42703एच) रिजार्ड्स फौमई, इन्फैन्ट्री	(एसएस-42737डब्ल्यू) नितिन सलाथिया, इन्फैन्ट्री
(एसएस-42704एल) जितेन्द्र कुमार शर्मा, मेक	(एसएस-42738वाई) पवलजीत सिंह, एओसी
(एसएस-42705एन) प्रमोद काम्बले, आर्टी	(एसएस-42739एफ) डे राहुल पिजूष, एएडी
(एसएस-42706डब्ल्यू) सनी गुंसाई, इन्फैन्ट्री	(एसएस-42740डब्ल्यू) रंजीतसिंह अजितसिंह पाटील, इंजीनियर
(एसएस-42707वाई) मनोज जोशी, इन्फैन्ट्री	(एसएस-42741वाई) अनिल कुमार, इन्फैन्ट्री
(एसएस-42708एफ) परमजीत सिंह, सिग्नल	(एसएस-42742एफ) अनुपम यादव, आर्टी
(एसएस-42709के) परिवार शिवकुमार उन्नीकृष्ण, इन्फैन्ट्री	(एसएस-42743के) सरोज कुमार बैत, एससी
(एसएस-42710वाई) समरजीत, इन्फैन्ट्री	(एसएस-42744एम) ज्ञा अमित कुमार भोगेन्द्र, ईएमई
(एसएस-42711एफ) विनायक अय्यर, इन्फैन्ट्री	(एसएस-42745पी) तुडुंग शातसंग, इन्फैन्ट्री
(एसएस-42712के) भानु प्रताप सिंह, इन्फैन्ट्री	(एसएस-42746एक्स) प्रणीत सिंह, इन्फैन्ट्री
(एसएस-42713एम) मोहित कुमार बंसल, इन्फैन्ट्री	(एसएस-42747ए) कुणाल प्रियदर्शी, इन्फैन्ट्री
(एसएस-42714पी) अमित चौधरी, इन्फैन्ट्री	(एसएस-42748एच) जोशी विवेक प्रल्हाद, आर्टी
(एसएस-42715एक्स) शिशिर शैट्टी, ईएमई	(एसएस-42749एल) प्रणव उपाध्याय, इन्फैन्ट्री
(एसएस-42716ए) मनोज कुमार सांख्यान, इन्फैन्ट्री	(एसएस-42750ए) करनवीर साहवा, इन्फैन्ट्री
(एसएस-42717एच) गोसावी कुनाल मुन्ताजीर, आर्टी	(एसएस-42751एच) सनधीत सिंह ग्रेवाल, एसी
(एसएस-42718एल) सिलास सिंजराल, एओसी	(एसएस-42752एल) अभियेक आर नाइक, इन्फैन्ट्री
(एसएस-42719एन) विशाल राक्षे, सिग्नल	(एसएस-42753एन) विजय सिंह, जेएजी
(एसएस-42720एच) शोजब रहमान, इन्फैन्ट्री	(एसएस-42754डब्ल्यू) अमित कुमार सिंह, एससी
(एसएस-42721एल) विशाल क्षेत्री, इन्फैन्ट्री	(एसएस-42755वाई) आदित्य कपिला, एएडी
(एसएस-42722एन) शेदये विक्रान्त शशिकांत, आर्टी	(एसएस-42756एफ) रजत पालीवाल, इन्फैन्ट्री
(एसएस-42723डब्ल्यू) प्रवेश शाह, इन्फैन्ट्री	(एसएस-42757के) नितिन शर्मा, एओसी
(एसएस-42724वाई) नरेन्द्र सिंह, जेएजी	(एसएस-42758एम) गोविंद सिंह, आर्टी
(एसएस-42725एफ) नवनीत सिंह, इन्फैन्ट्री	(एसएस-42759पी) पवन सेठी, मेक
(एसएस-42726के) लोकेन्द्र सिंह, आर्टी	(एसएस-42760के) अर्जुन शर्मा, आर्टी
(एसएस-42727एम) भवानी सिंह, एसी	(एसएस-42761एम) हिमांशु कुमार, इन्फैन्ट्री
(एसएस-42728पी) आशुतोष रावत, इंजीनियर	(एसएस-42762पी) एस सजन चक्रवर्ती, इन्फैन्ट्री
(एसएस-42729एक्स) दीपक कुमार विष्ट, इन्फैन्ट्री	(एसएस-42763एक्स) अमित सिंह, आर्टी
(एसएस-42730एम) के देवी जोसफ, सिग्नल	(एसएस-42764ए) कोम्माराजु अविनाश राव, इन्फैन्ट्री
(एसएस-42731पी) सचेन्द्र सिंह, आर्टी	(एसएस-42765एच) नितेश कटवाल, इन्फैन्ट्री

(एसएस-42760एस) : तारेरु मॉडर्न, अदो	(एसएस-42800एस)
(एसएस-42761एस) : वीरेश कुमार शर्मा, इन्दौर	(एसएस-42801एस)
(एसएस-42762एस) : सुनील कुमार मिश्रा, अदो	(एसएस-42802एस)
(एसएस-42763एस) : कृष्णा शर्मा, इन्दौर	(एसएस-42803एस)
(एसएस-42770एस) : अजय कुमार शर्मा, अदो	(एसएस-42804एस)
(एसएस-42771एस) : ईशर चौधरी, इन्दौर	(एसएस-42805एस)
(एसएस-42772एस) : विनय कुमार शर्मा, इन्दौर	(एसएस-42806एस)
(एसएस-42773एस) : रमेश शर्मा, इन्दौर	(एसएस-42807एस)
(एसएस-42774एस) : सुरेश शर्मा, इन्दौर	(एसएस-42808एस)
(एसएस-42775एस) : अशोक कुमार शर्मा, अदो	(एसएस-42809एस)
(एसएस-42776एस) : विजय कुमार शर्मा, इन्दौर	(एसएस-42810एस)
(एसएस-42777एस) : लक्ष्मी कुमार शर्मा, इन्दौर	(एसएस-42811एस)
(एसएस-42778एस) : विजय कुमार शर्मा, इन्दौर	(एसएस-42812एस)
(एसएस-42779एस) : सुनील शर्मा, इन्दौर	(एसएस-42813एस)
(एसएस-42780एस) : प्रदीप शर्मा, इन्दौर	(एसएस-42814एस)
(एसएस-42781एस) : ईशर शर्मा, इन्दौर	(एसएस-42815एस)
(एसएस-42782एस) : अशोक शर्मा, इन्दौर	(एसएस-42816एस)
(एसएस-42783एस) : अशोक शर्मा, इन्दौर	(एसएस-42817एस)
(एसएस-42784एस) : विजय शर्मा, इन्दौर	(एसएस-42818एस)
(एसएस-42785एस) : अशोक कुमार शर्मा, इन्दौर	(एसएस-42819एस)
(एसएस-42786एस) : अशोक शर्मा, इन्दौर	(एसएस-42820एस)
(एसएस-42787एस) : अशोक कुमार शर्मा, इन्दौर	(एसएस-42821एस)
(एसएस-42788एस) : अशोक शर्मा, इन्दौर	(एसएस-42822एस)
(एसएस-42789एस) : अशोक कुमार शर्मा, इन्दौर	(एसएस-42823एस)
(एसएस-42790एस) : अशोक कुमार शर्मा, इन्दौर	(एसएस-42824एस)
(एसएस-42791एस) : अशोक शर्मा, इन्दौर	(एसएस-42825एस)
(एसएस-42792एस) : अशोक शर्मा, इन्दौर	(एसएस-42826एस)
(एसएस-42793एस) : अशोक शर्मा, इन्दौर	(एसएस-42827एस)



प्रदान किया जाता है। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के साथ ही इनको दिनांक 22 सितम्बर 2007 से पांच वर्ष के लिए अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) प्रदान किया जाता है। उन्हें दिनांक 22 सितम्बर 2005 से विशेष सेवानुदेश 1:एस/94 (संशोधित) के अन्तर्गत तकनीकी योग्यता हेतु दो वर्ष पूर्व निर्वाचित वरिष्ठता, वेतन तथा प्रोन्नति के लिए, दो जाती हैं :--

(एसएस नं.) नाम, आर्म्स/सर्विस

(एसएस-42649ए) रविन्दर पाल सिंह, इंजीनियर

(एसएस 42650पी) कपिल झिगन, ईएमई

(एसएस-42651एक्स) मनीष दिपकज, इंजीनियर

(एसएस-42652ए) मोहित कपूर, सिगनेल

(एसएस-42653एच) शिव सिंह शेखावत, ईएमई

(एसएस-42654एल) वरुण परमार, एड्डे

अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन)

निम्नलिखित जेंटलमैन कैंडेट जो कि 14 यू ई एस पाठ्यक्रम के हैं, को लेफ्टिनेंट के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से सेवा अनुदेश 2:93, यथासंशोधित को पूर्व आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिए, जो कि भारतीय नौय अकादमी, देहरादून में प्रशिक्षणरत हैं, अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है :--

आईएमए संख्या, नाम (एसएस संख्या), आर्म्स/सर्विस, अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि

यू/605, योगेश चंद (एसएस-42067ए), इंजीनियर्स, 01 जुलाई 2004

नौलेश चौधरी

मेजर

एमएस 8 बी

वायु शाखा

सं. 536, दिनांक 21 अक्टूबर 2008--रक्षूपति सहर्ष निम्नलिखित ऑफिसरों को जिन्हें स्थायी कमिशन (परखाधीन) प्रदान किया गया था, उन्हें उनके नाम के सामने दी गई दिनांक से पुष्टि करते हैं :--

भारतीय वायु सेना

प्रशासनिक शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर टी श्रीनिवासराव (29072), आर रंजित (29074), प्रत्यूष कुमार मिश्रा (29075), के एल पार्थसारथी (29076), काले विनय एभाकर राव (29077), प्रदीप कुमार गुप्ता (29078), जी श्रीनिवास रेड्डी (29079), अक्षय कुमार (29080), जी एस गंड्योक् (29082), एम श्याम सुन्दर (29083), श्रीनिवासा राव कदमुरी (29084), एन एस मेहता (29085), राजीव चौहान (29086) और सुनील शिवाथानुषन प्रसन्न कुमार (29087)--17 जून 2006 से प्रभावी।

संभारिकी शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर आर सतीश नायर भास्करण (29088) और आर भास्करण (29089)--17 जून 2006 से प्रभावी।

लेखा शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर टी बी गोपा कुमार (29090), जी डी शर्मा (29091), सैनेज गंगाधरण (29092) और विकास सोनि (29093)--17 जून 2006 से प्रभावी।

शिक्षा शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर एम सुब्बा राव (29094), यू एस साहू (29095), मनोज कुमार (29096) और श्री प्रकाश जै (29097)--17 जून 2006 से प्रभावी।

ड्रगन (पायलट) शाखा

फ्लाईंग ऑफिसर विशाख नायर (28993), आलोक अल्लायल (28994), अरुण देविड दिलिप चौमुले (28995), गौरव सिंह (28996), चन्द्र प्रकाश (28998), अरुणभ घोष (28999), अतुल हर्षाक (29000), अभिषेक तिवारी (29001), रजत हंस (29002), अजय दसरती (29003), गौरव मित्तल (29005), ओमर ब्रॉन (29006), प्रवीन (29007), मनु अखौरी (29008), रोहित चौधरी (29009), प्रदीप कुमार (29010), किस्टी जोर्ज वरगीस (29011), मनीष शर्मा (29012), रसिकेश्वर राणा (29013), शुभानु शुक्ला (29014), उत्कर्ष सिंह (29015), कुन्दर पाल सिंह (29017), श्रेयस आर अधव (29018), अक्षय सक्सेना (29020), नयन एस बहुआ (29021), निखिल मल्होत्रा (29022), राहुल रावत (29023), गगन सिकरो (29024), निलेश कुमार पांडेय (29025), पवन कुमार कादयान (29026), मनीष कुमार पांडेय (29027), विक्रमदित्य जयसवाल (29028), हरिओम दुबे (29029), विशाल मिश्रा (29030), अभजित गुहा (29031), सचिन कुमार (29032), जसप्रीत सिंह संधु (29033), के एम ए अयूष (29034), शिवा ठाकुर (29035), सचिन मूद (29036), जी आर खर्च (29037), गौरव शर्मा (29038), अमित कुमार भर्पोरिया (29039), प्रतीश मिमरन सिंह (29040), हर्ष पाण्डे (29041), भरत मल्होत्रा (29042), तापस ओझा (29043), निशित तारे (29045), श्वेतांक सिंह डामर (29046), अमित कुमार भादू (29047), अभिषेक (29048), सिद्धार्थ चतुर्वेदी (29049), टी दयाल शर्मा (29051), सुधांशु राय (29052), हरदीप सिंह भाटिया (29053), आर के सिन्हा (29054), शैलक कुलकर्णी (29055), अंशुल खाली (29056), रोहन दिनेश मंगलकर (29058), आनन्द कुमार यादव (29059), भूपन एस राव (29060), धर्मेन्द्र सुन्दा (29061), अंवर अग्रवाल (29062), शिवम पी के बासन (29063), रणवीर कुमार ठाकुर (29064), रब्बा राजा विवेक (29065), रोहित रंजन (29066), क्षेत्रिषयुष उदेन्द्र सिंह (29067), गाला हितेश दिनेश (29068) और विश्वजीत दाश (29070)--17 जून 2006 से प्रभावी।

एन विजय कुमार

विंग कमांडर

जेडपीओ-3डी



- (आईसी-40452एल) परमजीत सिंह, आर्टी, 12 जून 2008  
 (आईसी-40455वाई) एस पी शर्मा, एएससी, 12 जून 2008  
 (आईसी-40459पी) पी के रायल, इन्फैन्ट्री, 12 जून 2008  
 (आईसी-40503एन) आर वी वी एस जगाती, इन्फैन्ट्री, 12 जून 2008  
 (आईसी-40510के) वी के सावन्त, एएससी, 12 जून 2008  
 (आईसी-40526पी) ए के सरकार, एएडो, 12 जून 2008  
 (आईसी-40536वाई) आर सी गुप्ता, एओसी, 12 जून 2008  
 (आईसी-40559ए) रविन्दर सिंह, मैक इन्फैन्ट्री, 12 जून 2008  
 (आईसी-40565एन) नरेन्द्र शर्मा, एओसी, 12 जून 2008  
 (आईसी-40583डब्ल्यू) पी सी कौदल, आर्टी, 12 जून 2008  
 (आईसी-40594एच) काशीनाथ ने, इन्फैन्ट्री, 12 जून 2008  
 (आईसी-40598वाई) के एल पाठक, इंजीनियर्स, 12 जून 2008  
 (आईसी-40609ए) एम एन रात, एओसी, 12 जून 2008  
 (आईसी-40613एच) जी एल शर्मा, इन्फैन्ट्री, 12 जून 2008  
 (आईसी-40625एक्स) के पी मिश्रा, ईएमई, 12 जून 2008  
 (आईसी-40631एल) के नायन, इन्फैन्ट्री, 12 जून 2008  
 (आईसी-40635एफ) देवेन्द्र सिंह, आर्टी, 12 जून 2008

अजय गोयल  
 उप निदेशक  
 एमएस-8ए

#### (थल सेना विभाग)

सं. 540, दिनांक 22 अक्टूबर 2008--थल सेना अनुदेश 37/78 व उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :-

#### नियमित सेना

#### सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

#### (स्थाई कमीशन)

लेफ्टि. कर्नल से ग्रुप कैप्टन के पद पर

(डीआर-10416एल) (28905), एच एस दोकर, 22 अप्रैल 2008

मेजर से लेफ्टि. कर्नल के पद पर

(डीआर-10468पी) प्रसन्ना कुमार एम पी, 05 मई 2008

(परन्तु वैकल्पिक वरीयता 20 मई 2006 से दी जाती है जो चेतन और धनो पर प्रभावो नहीं होगी)

थल सेना अनुदेश 15/79 व उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :-

#### नियमित सेना

#### सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

#### (अल्पकालीन कमीशन)

कैप्टन से अर्द्ध-स्थायी मेजर के पद पर

डीएस-12102एच, महालक्ष्मी एच एस, 01 नवम्बर 2007

डी के तनेजा  
 मेजर जनरल  
 एडीजीडीएस

#### सेना शाखा

सं. 541, दिनांक 22 अक्टूबर 2008--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :-

#### नियमित सेना

#### स्थायी कमीशन

#### मेजर से

आईसी सं., नाम, आर्म एवं प्रभावित तिथि

(45024) वरीन्दर सिंह, इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004

(54877) दिनेश शर्मा, एसी, 04 नवम्बर 2006

(53166) कुलविन्दर सिंह, ईएमई, 10 दिसम्बर 2007

(53169) आशीष खनवालकर, आर्टी, 10 दिसम्बर 2007

#### कप्तान से मेजर

आईसी नं., नाम, आर्म एवं मेजर दिनांक से

(56303) जियन चन्द्र कोच, आर्टी, 06 नवम्बर 2006

(56304) सुधीर कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री, 06 नवम्बर 2006

(56306) रोहित शर्मा, आर्टी, 06 नवम्बर 2006

(56307) रणदीप सिंह, इन्फैन्ट्री, 06 नवम्बर 2006

(56310) योगेश स्वरूप, एएससी, 06 नवम्बर 2006

(60333) ओम पाल सिंह, एसी, 09 दिसम्बर 2006

(60483) आशीष चौहान, ईएमई, 09 दिसम्बर 2006

(60650) वी चक्रावती, इन्फैन्ट्री, 09 जून 2008

(61387) के सिद्धार्थ नारायण, इंजीनियर्स, 08 मार्च 2008

(61654) अमोल शान्तराम अवाते, मैक इन्फैन्ट्री, 08 जून 2008

(65173) मनीष गुप्ता, एसी, 03 नवम्बर 2007

(65261) सुरेन्द्र सिंह राव, एएससी, 03 नवम्बर 2007



## अल्पकालीन सेवा कमीशन (मैन)

ले. से कप्तान

एसएस सं.	नाम	आर्म	कोर्स	कमीशन की तिथि	वरीयता तिथि	संशोधित वरीयता तिथि	कप्तान दिनांक से
42378	रुषिकेश मोहन पाटिल	ईएमई	एसएससी 26(टी)	17 मार्च 2007	20 मार्च 2005	20 अप्रैल 2005	20 अप्रैल 2007
42379	सम्राट वशिष्ठ	एएडी	एसएससी 26(टी)	17 मार्च 2007	20 मार्च 2005	20 अप्रैल 2005	20 अप्रैल 2007
42385	विजय धनिकंदन लैयापुरी	ईएमई	एसएससी 26(टी)	17 मार्च 2007	20 मार्च 2005	20 अप्रैल 2005	20 अप्रैल 2007
42386	मधुसूदन गुरू	ईएमई	एसएससी 26(टी)	17 मार्च 2007	20 मार्च 2005	20 अप्रैल 2005	20 अप्रैल 2007
42388	प्रदीप जयारमन	ईएमई	एसएससी 26(टी)	17 मार्च 2007	20 मार्च 2005	20 अप्रैल 2005	20 अप्रैल 2007
42394	टगुन्डे कृष्णल पुंडलिक	इंजीनियर्स	एसएससी 26(टी)	17 मार्च 2007	20 मार्च 2005	20 अप्रैल 2005	20 अप्रैल 2007
42397	संदीप कुमार सिंह	ईएमई	एसएससी 26(टी)	17 मार्च 2007	20 मार्च 2005	20 अप्रैल 2005	20 अप्रैल 2007
42407	साल्वी समीर सतीश	सिग्नलम	एसएससी 26(टी)	17 मार्च 2007	20 मार्च 2005	20 अप्रैल 2005	20 अप्रैल 2007
42408	जोसेफ जॉन पलाम्पूट्टिल	इंजीनियर्स	एसएससी 26(टी)	17 मार्च 2007	20 मार्च 2005	20 अप्रैल 2005	20 अप्रैल 2007
42409	अमरनाथ पां	ईएमई	एसएससी 26(टी)	17 मार्च 2007	20 मार्च 2005	20 अप्रैल 2005	20 अप्रैल 2007

जसवंत सिंह  
संयुक्त निदेशक  
एमएस-8सी

## सेना शाखा

सं. 542, दिनांक 23 अक्टूबर 2008--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित  
एमसी अधिकारियों को उनके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं :-

## नियमित सेना

## स्थायी कमीशन

## कप्तान से मेजर के पद पर

विजय कुमार शर्मा (एमआर-07563एम), एएमसी, 05 फरवरी 2006

अभिषेक कुमार शुक्ला (एमआर-07856एम), एएमसी, 04 जनवरी  
2008

धोरज कुमार (एमआर-07892आई), एएमसी, 04 जनवरी 2008

विनोद कुमार (एमआर-08620एल), एएमसी, 27 जनवरी 2008

कुमार संजय निराला (एमआर-07921एच), एएमसी, 22 फरवरी  
2008

देवाशोष पॉल (एमआर-08621एन), एएमसी, 04 जून 2008

जी रवीन्द्रनाथ  
मेजर जनरल

अपर महानिदेशक सेसेचिसे (मानव संसाधन)

सं. 543, दिनांक 23 अक्टूबर 2008--राष्ट्रपति, निम्नलिखित  
पदोन्नतियां करते हैं :-

## नियमित सेना

## तोपखाना रेजिमेन्ट

## सबऑटिव सूबेदार मेजर (जी डी) के पद में

सूबेदार सोहन सिंह (जेसी-257952एच), 03 मार्च 2008/01 जनवरी  
2008\*

सूबेदार ए एन सिंह (जेसी-258275एक्स), 08 मार्च 2008/01 मार्च  
2008\*

सूबेदार सुरेन्द्र सिंह (जेसी-261425आई), 13 जून 2008/01 जून  
2008\*

## सबऑटिव सूबेदार मेजर (ए आई जी) के पद में

सूबेदार मनजीत सिंह (जेसी-259413एल), 10 जुलाई 2008/01 जुलाई  
2008\*

## सबऑटिव सूबेदार (ए आई जी) के पद में

नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जेसी-263666एक्स), 01 अप्रैल 2006/  
01 मार्च 2006\*

नायब सूबेदार जोगिन्दर सिंह (जेसी-264442के), 01 जनवरी 2007

नायब सूबेदार मोहन लाल (जेसी-266895एन), 01 मई 2008

नारद सूर्यदास लक्ष्मण मिश्र (सि.सी. 26357/एम), 01 अगस्त 2008  
 नारद सूर्यदास श्यामजी गोसायन (सि.सी. 26389/एम),  
 01 अगस्त 2008  
 नारद सूर्यदास मनोहर मिश्र (सि.सी. 26798/एम), 01 अगस्त 2008  
 \*संश्लेषण प्राप्त:

मन्त्रों का प्रयोग : (१) के पृष्ठ में

नवम् मासः १९७६ आषाढमासः पौर्णमासी १९७६-१९७७  
०५ मासः १९७६ ०६ मासः १९७६\*

गणपति मन्त्रालय, नई दिल्ली-110 002, भारत  
01 मार्च 2008

नाम: सुरेंद्रास मदन लाल शर्मा (जन्म: 260781750) का जन्मदिन  
2008-01-01 (जन्म: 2008-01-01)

(b) वर्ष 2008<sup>\*</sup>

नवम्ब सुवेधान नवम्ब अर्थिन्दि आत्मकपुत्र (फैसा-२०८१) पृष्ठ ३७ मते  
२००४-०५ तेर २००६

प्राप्त्य नुसंक्रः प्रमंरः न्दः : अंनः 267706प्रां. 0। ३३. 2008

सायस लुव्वाय कावेरुवा राजगण सुकानाथ (मेस 207577/2005),  
10 मई 2005 (1) पृष्ठसं 21005<sup>4</sup>

गणतन्त्र नेपाल सरकार, विभिन्न विभाग २०७०.१.१०५ २९ मार्च २०७८  
 ०१ मार्च २०७८ \*

नायक सुब्रह्माय्य यादव (जन्म-26/05/82 ई.), 04 मार्च 2008  
(09 दिवस) 2007

©) जून 2008

(ii) आयुक्त 2007 \*

नामक मुद्रांक: नाकका/सिंह/१ जर्म-26788(51.81.0) वर्ष: 2008

01. ११/०५/२००८

(ii) मार्च २०१८ \*

“नामक सूचना अधिनियम (अंश-267974पी), 30 जून 2008  
08 कार्या 2008”

नगर पंचायत का नाम: गणेशगढ़, पिन कोड: 307345, तालुका: गणेशगढ़  
01 अप्रैल 2008

नाम: मधुना नाथन सिंह (आई. 268435एल); 17 जून 2008  
 01 जून 2008

सत्यमेव जयते। विंशति शतकः (१९०३-२०२४)। पृष्ठ संख्या ५०७

नाम: सुविधा: पता: पत्रांक: दिनांक: 26/07/2008 02:00 / 2008  
01 जुलै 2008 \*

नायक सुखदेव वर प्रकाश नंदी : जर्मनी 267393एम्बर्ग, 01 जून 2008

राज्य सचिवद्वारा किशोर् कन्या शर्मा (तैगो-268752एम), 01/08/2008

नाथय सुवेदास पुन बर जेना-26805974, 01 जुन 2008

नायब सूचिदार भायब २७ वे (नंया २०८४१३एकत), ०१ जून २००८

23. जून 2008:01 जून 2008:

नायब सचिवदार, विद्यवा नगर (दूर-३०८५३९)। ०१ जून २००८

कायव सचेदार विजय शर्मा (फोन- 268665वर्ग), 02 जून 2008  
01 जून 2008 \*

नाथव संवत्सर मास : चैत्र 2687 (1998) 01 जून 2008

नाथय्य सूबेदार एवं संयोजक : जेलों : 267144वाँ), 28 जून 2008  
114 जून 2008 \*

अथर्व सुवेदार हतमप्या जयन्त्यते : ज्यैष्ठ-200:82पत्र 1. भा. जन. 2008

सायब सूर्यदेव गोगिनर नं० - पत्नी-267141 यून। 02 जन 2008  
Q) जन 2008 \*

नायब सूबेदार कांठा रोडचे पोलवरी येथे । तेली-267339चे । 24 फेब्रुवारी 2008/12 मई 2008

नाथन सूत्रेदार प्रेस चण्डेन (फ़ोन 267418वर्क), 18 अगस्त 2008/21 मई 2008

नयबत सूबेदार राम नरेश बन्नेजिया (पेशवा 268266पां), 01 जुलाई 2008

सायब सचेंदार कृष्ण जाधव : संसदी-268570यडें 1. 01 जेव्हां 2008

नायब सचिवदार प्रिन्स गज्ज (फोन-२६८६७४९), ०९ जुलाई २००८  
 ०१ जुलाई २००८ \*

मासिक समीक्षा तालिका क्र. ३६८५२३६१.०१ वर्षां २००४

नवय सूर्यदेर प्रवृत्त गिर्त वृत्तगत (वेबो-208525एन), 01 नृत्तई  
2008

नामच सुवेदार एस डी गमान : वे.प्री. 267405एफ.डी. 01 जून 2008

नायक सुरेंद्रा एम आय . जेम्स 267 (58पे), 01 जून 2008

नायब सचिवदार जनक गिरी (फैसल-267197/कस्त), 01 जून 2008

नायब सूबेदार मदन लाल शर्मा-267545एन), 09 जून 2008.  
01 जून 2008 \*

नामाल सूचेदार लक्ष्मीदेव (पिं०) (अं०) 267798एच), 23 जून 2008.  
01 जून 2008 \*

सायब सुवेदा केसदम मे (नेमा 267879एम), 10 दन 2008  
01 जन 2008\*

नायक मुखेंदार भगत (द.सं. : केसी-168483एल/1, 02 गृन 2008)  
 (1) जन 2008\*

01 जन 2008 \*

नायब सूबेदार प्रोतम सिंह (जेसी-267959ए), 01 जून 2008  
 नायब सूबेदार अमरोत लाल (जेसी-268032एल), 01 जून 2008  
 नायब सूबेदार बियन्त सिंह (जेसी-268219एक्स), 01 जून 2008  
 नायब सूबेदार अभय सिंह यादव (जेसी-268205एक्स), 02 जून 2008/01 जून 2008 \*

नायब सूबेदार राम कुमार शर्मा (जेसी-268445पी), 13 जून 2008/01 जून 2008 \*

\*(ज्येष्ठता प्राप्त)

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार अमरीक सिंह (सं. 14410984ए अब जेसी-271962एक्स), 19 जून 2008/01 अप्रैल 2008 \*

आरएचएम देवेन्द्र कुमार (सं. 14414551ए अब जेसी-271963ए), 27 मई 2008/16 मई 2008 \*

आरएचएम हरचिन्द सिंह (सं. 145132699वाई अब जेसी-271964एच), 28 मई 2008/16 मई 2008 \*

आरएचएम दामुक्कर रोहित प्रल्हाद (सं. 14421609पी अब जेसी-271965एल), 13 जून 2008/16 मई 2008 \*

हवलदार विनोद कुमार आहिर (सं. 15115220एच अब जेसी-271966एन), 17 जून 2008/01 जून 2008 \*

हवलदार संजोव कुमार (सं. 15120000एच अब जेसी-271967डब्ल्यू), 07 जून 2008/01 जून 2008 \*

हवलदार अनिल कुमार आर (सं. 14402359के अब जेसी-271968वाई), 02 अगस्त 2008/25 जून 2008 \*

हवलदार विजय कुमार खशिष्ठ (सं. 15112937वाई अब जेसी-271969एफ), 01 जुलाई 2008

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 15113215वाई अब जेसी-271970डब्ल्यू), 01 जुलाई 2008

हवलदार प्रेम प्रकाश तिवारी (सं. 14393667ए अब जेसी-271993एक्स), 29 फरवरी 2008/01 नवम्बर 2007 \*

हवलदार घन श्याम यादव (सं. 14421689एक्स अब जेसी-271994ए), 07 अप्रैल 2008/30 नवम्बर 2007 \*

हवलदार मोहिते जयसिंह आप्पासो (सं. 14409253ए अब जेसी-271995एच), 28 मार्च 2008/01 दिसम्बर 2007 \*

हवलदार गणेश कुमार (सं. 14412267एल अब जेसी-271996एल), 15 अप्रैल 2008/01 जनवरी 2008 \*

हवलदार सत्य पाल (सं. 14481397वाई अब जेसी-271997एन), 01 मई 2008/01 फरवरी 2008 \*

हवलदार बाबू लाल (सं. 14399330एन अब जेसी-271998डब्ल्यू), 18 फरवरी 2008/01 फरवरी 2008 \*

हवलदार सुभाष चन्द्र डुवे (सं. 14492943ए अब जेसी-271999वाई), 29 फरवरी 2008/12 फरवरी 2008 \*

बीएचएम घनश्याम (सं. 14380339एन अब जेसी-272000ए), 29 फरवरी 2008/25 फरवरी 2008 \*

बीएचएम कानैल सिंह (सं. 14497233एम अब जेसी-272001एच), 13 मई 2008/01 अप्रैल 2008 \*

हवलदार सृजन सिंह (सं. 14385197एल अब जेसी-272002एल), 01 मई 2008/01 अप्रैल 2008 \*

हवलदार सुरेश कुमार डो (सं. 14497202एम अब जेसी-272003एन), 12 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008 \*

हवलदार महापुनकर गिरीश दगडू (सं. 15113162एल अब जेसी-272004डब्ल्यू), 09 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008 \*

बीएचएम रिच्चपाल सिंह (सं. 14382020एम अब जेसी-272005वाई), 21 जून 2008/19 अप्रैल 2008 \*

हवलदार भंवर सिंह कनावट (सं. 15103094पी अब जेसी-272006एफ), 26 जून 2008/01 जून 2008 \*

हवलदार गुप्तेश्वर यादव (सं. 14493340डब्ल्यू अब जेसी-272007के), 02 जून 2008/01 जून 2008 \*

हवलदार रमेश यादव (सं. 14401391एम अब जेसी-272008एम), 01 जुलाई 2008

हवलदार नन्द लाल (सं. 14365654एम अब जेसी-271898एल), 27 अप्रैल 2008/01 अगस्त 2007 \*

हवलदार लाल टी पी (सं. 15109914एम अब जेसी-271899एन), 29 फरवरी 2008/01 दिसम्बर 2007 \*

हवलदार राजेन्द्र पॉल (सं. 14498961वाई अब जेसी-271900एक्स), 25 जून 2008/01 जनवरी 2008 \*

हवलदार बलवन्त सिंह (सं. 15100460एच अब जेसी-271901ए), 07 मई 2008/01 जनवरी 2008 \*

हवलदार सुन्दर कुमार (सं. 14372582डब्ल्यू अब जेसी-271902एच), 24 अप्रैल 2008/01 जनवरी 2008 \*

हवलदार परशु राम (सं. 15103267एफ अब जेसी-271903एल), 22 जनवरी 2008/01 जनवरी 2008 \*

हवलदार राजविन्दर सिंह (सं. 14380812एन अब जेसी-271904एन), 22 अप्रैल 2008/01 फरवरी 2008 \*

बीएचएम सी हरुन साहेब (सं. 14479983एच अब जेसी-271905डब्ल्यू), 16 जून 2008/01 फरवरी 2008 \*

हवलदार कुन्दन सिंह (सं. 15133234एल अब जेसी-271906वाई), 01 मई 2008/25 मार्च 2008 \*

हवलदार गुरतेज सिंह (सं. 14493026एच अब जेसी-271907एफ), 01 अप्रैल 2008

हवलदार उमराव सिंह (सं. 14489053पी अब जेसी-271908के), 14 जून 2008/01 अप्रैल 2008 \*

हवलदार कैलाश चन्द्र (सं. 14478711डब्ल्यू अब जेसी-271909एम), 10 जून 2008/01 अप्रैल 2008 \*

हवलदार ए. कामरान (सं. 14496041एम अथ जेसी-271918एम), 07 मई 2008/28 अप्रैल 2008\*

हवलदार कालचन्द मिश्र (सं. 14185889पी अथ जेसी-271918एम), 01 जून 2008

हवलदार भुवेंद्र कुमार (सं. 15109490एम अथ जेसी-271918एम), 27 जून 2008/01 जून 2008\*

हवलदार धीरू प्रसाद (सं. 14489634एम अथ जेसी-271918एम), 27 जून 2008/24 जून 2008\*

हवलदार कान्त सिंह (सं. 15111507एम अथ जेसी-271918एम), 19 दिसम्बर 2007/01 नवम्बर 2007\*

हवलदार मंजय सावरीजी (सं. 15122892एम अथ जेसी-271918एम), 21 फरवरी 2008/20 नवम्बर 2007\*

हवलदार एम. मधुसूदन शर्मा (सं. 14388099एम अथ जेसी-271918एम), 11 मार्च 2008/30 नवम्बर 2007\*

हवलदार एस. सैतु मल्ल (सं. 14387896पी अथ जेसी-271918एम), 06 मई 2008/01 जनवरी 2008\*

हवलदार विनोद कुमार (सं. 14391245एम अथ जेसी-271918एम), 28 अप्रैल 2008/21 मार्च 2008\*

हवलदार राजेंद्र सिंह (सं. 14390613एम अथ जेसी-271918एम), 17 जून 2008/01 अप्रैल 2008\*

हवलदार सुभाष सुभाष लोडे (सं. 15106746एम अथ जेसी-271918एम), 08 अगस्त 2008/01 अप्रैल 2008\*

हवलदार मेनका मेनका लक्ष्मण (सं. 14405289एम अथ जेसी-271921एम), 01 जुलाई 2008/27 अप्रैल 2008\*

हवलदार धीरू (सं. 14381922एम अथ जेसी-271922एम), 27 मई 2008/01 मई 2008\*

हवलदार राज प्रताप (सं. 14385908एम अथ जेसी-271922एम), 15 जून 2008/23 मई 2008\*

हवलदार विजय रतन (सं. 14391930पी अथ जेसी-271924एम), 09 जून 2008/01 जून 2008\*

हवलदार मन्दीरमो भुवेंद्रा (सं. 14479211एम अथ जेसी-271925एम), 25 एप्र 2008/01 जून 2008\*

हवलदार हरमोह सिंह (सं. 1438555एम अथ जेसी-271926एम), 23 जून 2008/01 जून 2008\*

हवलदार निरंजना रामाना (सं. 15110306एम अथ जेसी-271927एम), 26 एप्र 2008/01 जून 2008\*

हवलदार सुरेशचन्द्र कुमार शर्मा (सं. 15102887एम अथ जेसी-271928एम), 13 जून 2008/01 जून 2008\*

हवलदार जयलाल सिंह साहू (सं. 15112244एम अथ जेसी-271929एम), 26 एप्र 2008/01 जून 2008\*

हवलदार श्रीराम शर्मा (सं. 14389806एम अथ जेसी-271930एम), 08 अप्रैल 2008/31 मार्च 2008\*

हवलदार मोहि साहू लक्ष्म (सं. 14396957एम अथ जेसी-271931एम), 05 जनवरी 2008/04 अगस्त 2007\*

हवलदार मोनुषी लक्ष्मी देवी (सं. 14391002एम अथ जेसी-271932एम), 09 मई 2008/20 नवम्बर 2007\*

हवलदार नागपाला शर्मा जी (सं. 14492888पी अथ जेसी-271933एम), 04 फरवरी 2008/01 दिसम्बर 2007\*

हवलदार इलाहा एम (सं. 14391421एम अथ जेसी-271934एम), 04 फरवरी 2008/15 दिसम्बर 2007\*

हवलदार हुकुम चंद शर्मा (सं. 14380742एम अथ जेसी-271935एम), 29 जनवरी 2008/07 जनवरी 2008\*

हवलदार रामाचन्द्र (सं. 14386204एम अथ जेसी-271936एम), 23 जून 2008/01 फरवरी 2008\*

बीएचएम पाणन अश्विनाथ गव (सं. 14370860एम अथ जेसी-271937एम), 23 जून 2008/01 फरवरी 2008\*

हवलदार एम. मधुसूदन (सं. 14380784एम अथ जेसी-271938एम), 18 मार्च 2008/01 मार्च 2008\*

हवलदार विवेका कुमार गण्डत (सं. 14488013एम अथ जेसी-271939एम), 22 जून 2008/01 अप्रैल 2008\*

हवलदार फारुख मोहम्मद मन्नाम (सं. 14498175एम अथ जेसी-271940एम), 01 अप्रैल 2008

हवलदार सीतार राजन पी (सं. 15111696एम अथ जेसी-271941एम), 09 मई 2008/01 अप्रैल 2008\*

हवलदार विरेंद्र सिंह (सं. 14403286पी अथ जेसी-271942एम), 16 मई 2008/01 मई 2008\*

हवलदार रघुवीर सिंह (सं. 14378714पी अथ जेसी-271943एम), 12 मई 2008/04 जून 2008\*

हवलदार राजेश कुमार (सं. 15106396एम अथ जेसी-271944एम), 09 जून 2008/01 जून 2008\*

बीएचएम शेन सिंह (सं. 14370259एम अथ जेसी-271945एम), 09 जून 2008/07 जून 2008\*

हवलदार राज कान विजय (सं. 14490928एम अथ जेसी-271946एम), 31 जनवरी 2008/09 दिसम्बर 2007\*

हवलदार कामेश्वर प्रसाद सिंह (सं. 14377017एम अथ जेसी-271947एम), 03 मई 2008/01 जनवरी 2008\*

हवलदार चन्द्र शर्मा शुकला (सं. 14398412पी अथ जेसी-271948एम), 18 फरवरी 2008/01 फरवरी 2008\*

बीएचएम लाल मोहन मिश्र (सं. 14477201एम अथ जेसी-271949एम), 27 फरवरी 2008/01 फरवरी 2008\*

बीएचएम अशोक सिंह (सं. 14482094एम अथ जेसी-271950एम), 29 फरवरी 2008/11 फरवरी 2008\*

हवलदार राजेंद्र सिंह (सं. 14367060एम अथ जेसी-271951एम), 08 मार्च 2008/26 फरवरी 2008\*



हवलदार कामता प्रसाद यादव (सं. 14498469एन अब जेसी-271952एन), 10 मार्च 2008/01 मार्च 2008 \*

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 14376663एन अब जेसी-271953डब्ल्यू), 15 अप्रैल 2008/01 मार्च 2008 \*

हवलदार श्यामा कान्त (सं. 15103266वाई अब जेसी-271954वाई), 01 अप्रैल 2008

वीएचएम जनक सिंह (सं. 14481834एन अब जेसी-271955एफ), 01 अप्रैल 2008

हवलदार रोमोधीर नाथ (सं. 14383070के अब जेसी-271956के), 25 अप्रैल 2008/01 अप्रैल 2008 \*

हवलदार धिपन कुमार (सं. 14488864एन अब जेसी-271957एम), 10 जून 2008/03 अप्रैल 2008 \*

हवलदार प्रावील सुरेश शिवाजी राव (सं. 14498551एच अब जेसी-271958पी), 03 जुलाई 2008/11 मई 2008 \*

वीएचएम कृष्णा कुमार मिश्रा (सं. 14396874एक्स अब जेसी-271960एम), 01 जून 2008

हवलदार मंगा प्रसाद (सं. 15107253वाई अब जेसी-271961पी), 04 जुलाई 2008/01 जुलाई 2008 \*

\*(न्येष्टता प्राप्त)

नायब सूबेदार (क्लर्क जो डी/एस के टी) के पद में

हवलदार (क्लर्क) मुरलीधरन नायर डी (सं. 14383597वाई अब जेसी-271784ए), 09 फरवरी 2008/01 जनवरी 2008 \*

हवलदार (क्लर्क) दुलैरा पंकज कुमार (सं. 14387039पी अब जेसी-271597एफ), 01 अप्रैल 2008

हवलदार (क्लर्क) शम्भू नाथ सिंह (सं. 15103623डब्ल्यू अब जेसी-271598के), 01 मई 2008

हवलदार (क्लर्क) प्रमोद कुमार अताबुधि (सं. 15103628पी अब जेसी-271599एम), 01 मई 2008

हवलदार (क्लर्क) नारायण साहू (सं. 14389326एक्स अब जेसी-271600डब्ल्यू), 01 मई 2008

हवलदार (क्लर्क) वनवासो जैना (सं. 14389329एल अब जेसी-271601वाई), 02 जून 2008/01 जून 2008 \*

हवलदार (क्लर्क) विजेन्द्र सिंह (सं. 15103669वाई अब जेसी-271785एच), 01 जून 2008

हवलदार (क्लर्क) सिदेश्वर सामल (सं. 15103672वाई अब जेसी-271602एफ), 02 जून 2008/01 जून 2008 \*

हवलदार (क्लर्क) भगवान सिंह (सं. 14389389ए अब जेसी-271786एल), 02 जून 2008/01 जून 2008 \*

हवलदार (क्लर्क) बंशीलाल सुधार (सं. 15103744एक्स अब जेसी-271603के), 02 जून 2008/01 जून 2008 \*

हवलदार (क्लर्क) हरमोहन सिंह (सं. 14389431एन अब जेसी-271787एन), 01 जून 2008

हवलदार (क्लर्क) रोहतास (सं. 15103703एन अब जेसी-271604एम), 02 जून 2008/01 जून 2008 \*

हवलदार (क्लर्क) मनोहर कुरुप टी एन (सं. 15103714ए अब जेसी-271605पी), 02 जून 2008/01 जून 2008 \*

हवलदार (क्लर्क) कुरियन ई के (सं. 14389556एल अब जेसी-271788डब्ल्यू), 28 जून 2008/01 जून 2008 \*

हवलदार (एस के टी)ओम प्रकाश (सं. 14386044एन अब जेसी-271789वाई), 01 जून 2008

हवलदार (एस के टी) करन खोतरिया (सं. 14386037एक्स अब जेसी-271790एन), 01 जून 2008

हवलदार (एस के टी) जशवंत सिंह (सं. 14386038ए अब जेसी-271791एन), 01 जून 2008

हवलदार (क्लर्क) राजन्ना (सं. 14389562वाई अब जेसी-271971वाई), 01 जुलाई 2008

हवलदार (क्लर्क) शंकर नायक (सं. 14389630एफ अब जेसी-271972एफ), 01 जुलाई 2008

हवलदार (क्लर्क) परशुराम (सं. 15103809ए अब जेसी-271973के), 01 जुलाई 2008

हवलदार (क्लर्क) सतीशपाल सिंह (सं. 15103663एन अब जेसी-271974एम), 01 जुलाई 2008

हवलदार (क्लर्क) धर्मेन्द्र सिंह (सं. 14383427पी अब जेसी-271792वाई), 01 जुलाई 2008

हवलदार (क्लर्क) चंद्र भान (सं. 14389651एक्स अब जेसी-271975पी), 01 जुलाई 2008

हवलदार (क्लर्क) दया शंकर पाण्डेय (सं. 14389653एच अब जेसी-271976एक्स), 01 जुलाई 2008

हवलदार (क्लर्क) झिरमल सिंह (सं. 14389694एम अब जेसी-271977ए), 01 जुलाई 2008

हवलदार (क्लर्क) अमरजीत सिंह (सं. 14389711एफ अब जेसी-271978एच), 01 जुलाई 2008

हवलदार (क्लर्क) गोकुल चंद (सं. 14389739एफ अब जेसी-271979एल), 01 जुलाई 2008

हवलदार (क्लर्क) चंद्र सेकर एम आर (सं. 14389785डब्ल्यू अब जेसी-271980ए), 01 जुलाई 2008

हवलदार (क्लर्क) देबदत्त शर्मा (सं. 14389841ए अब जेसी-271981एच), 01 जुलाई 2008

हवलदार (कनक) रमेश चंद्र चोपड़ा (सं. 1510417एम अथ जेसी- 2719820एन), 01 जून 2008

हवलदार (कनक) आर देवाप्रसाद रेड्डी (सं. 1439636एम अथ जेसी- 271983एम), 01 जून 2008

हवलदार (कनक) सुभाष श्रीराम (सं. 1510427एम अथ जेसी- 271984एम), 01 जून 2008

हवलदार (कनक) लोकेश सुनील नारयण (सं. 1510437एम अथ जेसी- 271985एम), 01 जून 2008

हवलदार (कनक की सेवा) चतु गोकुल कुरूप (सं. 143866एम अथ जेसी- 271986एम), 01 जून 2008

हवलदार (कनक की सेवा) सचेंद्र (सं. 1510499एम अथ जेसी- 271987एम), 01 जून 2008

हवलदार (कनक की सेवा) रमणेश राव (सं. 151026एम अथ जेसी- 271988एम), 01 जून 2008

\*(विशेष और अन्य बातों पर प्रभाव डाले बिना ही जारी है)

कोर ऑफ सिग्नल

महोदय सुबोध मेहर (कनक की सेवा) के रैंक में  
सुबोध कल्याण सिंह (जेसी- 36712एम), 01 फरवरी 2008

महोदय सुबोध मेहर (कनक की सेवा) के रैंक में  
सुबोध रमण कल्याण सिंह (जेसी- 36892एम), 01 फरवरी 2008

महोदय सुबोध मेहर (कनक की सेवा) के रैंक में  
सुबोध गुरु चन्द बोश (जेसी- 36833एम), 01 फरवरी 2008  
सुबोध प्रभा रमण सिंह (जेसी- 36869एम), 01 फरवरी 2008

महोदय सुबोध मेहर (कनक की सेवा) के रैंक में  
सुबोध योगेश्वर सिंह (जेसी- 36977एम), 01 फरवरी 2008

महोदय सुबोध मेहर (कनक की सेवा) के रैंक में  
सुबोध चन्द प्रसाद (जेसी- 37091एम), 01 फरवरी 2008  
सुबोध सुभाष चन्द प्रसाद (जेसी- 37093एम), 01 फरवरी 2008  
सुबोध रमण चन्द्र प्रसाद (जेसी- 37085एम), 01 फरवरी 2008

सुबोध सुभाष चन्द्र (जेसी- 37100एम), 01 फरवरी 2008  
सुबोध नंद लाल (जेसी- 37101एम), 01 फरवरी 2008

सुबोध विजय सिंह (जेसी- 37102एम), 01 फरवरी 2008

महोदय सुबोध रमणलाल के रैंक में (ए 709एम)

दफ्तार सुभाष चन्द्र प्रसाद (सं. 647654एम अथ जेसी- 681058एम), 22 फरवरी 2008/01 फरवरी 2008\*

दफ्तार विजय सिंह (सं. 647678एम अथ जेसी- 681059एम), 20 फरवरी 2008/01 फरवरी 2008\*

दफ्तार सुभाष चन्द्र प्रसाद (सं. 647656एम अथ जेसी- 681060एम), 12 फरवरी 2008/01 फरवरी 2008\*

दफ्तार सिंघास सिंह (सं. 647695एम अथ जेसी- 681061एम), 08 फरवरी 2008/01 फरवरी 2008\*

दफ्तार रामेश्वर पांडे (सं. 647980एम अथ जेसी- 681062एम), 18 फरवरी 2008/01 फरवरी 2008\*

दफ्तार अशोक कुमार एम पी (सं. 647285एम अथ जेसी- 681063एम), 01 फरवरी 2008/01 फरवरी 2008\*

दफ्तार गणेश चौधरी (सं. 647296एम अथ जेसी- 681064एम), 15 मई 2008/01 फरवरी 2008\*

दफ्तार यशवन्त सिंह (सं. 647634एम अथ जेसी- 681065एम), 16 मई 2008/01 फरवरी 2008\*

दफ्तार लालू सिंह (सं. 647636एम अथ जेसी- 681066एम), 16 मई 2008/01 मई 2008\*

दफ्तार ए सुब्रह्मण्यम (सं. 647639एम अथ जेसी- 681067एम), 31 मई 2008/01 अप्रैल 2008\*

दफ्तार ए एम चरण (सं. 647640एम अथ जेसी- 681068एम), 05 जून 2008/01 मई 2008\*

दफ्तार सी एम गोकुल (सं. 647635एम अथ जेसी- 681072एम), 03 जून 2008/01 जून 2008\*

दफ्तार ब्रजेंद्र (सं. 647636एम अथ जेसी- 681073एम), 04 जून 2008/01 जून 2008\*

दफ्तार एस की शर्मा (सं. 647638एम अथ जेसी- 681075एम), 01 जून 2008

दफ्तार महेंद्र सिंह (सं. 647632एम अथ जेसी- 681076एम), 07 जून 2008/01 जून 2008\*

\*(विशेष और अन्य बातों पर प्रभाव डाले बिना ही जारी है)

कोरामा शर्मा  
अवर सचिव

श्री लाल विभाग

सं. 544, दिनांक 24 अक्टूबर 2008 - राष्ट्रपति सहाय निर्माणित  
नियुक्तियां/प्रदानितों करने हैं:

निर्माणित सेवा  
कोरामा शर्मा  
अवर सचिव

हवलदार अमरुदत्त लक्ष्मीराम चंद्रशेखर कुमार लक्ष्मीराम  
(सं. 6929850एम अथ जेसी- 727988एम), 06 मई 2008\*

\*(विशेष सुबोध के रैंक में सेवा और अन्य बातों पर प्रभाव डाले बिना  
अपेक्षा 01 मई 2008 से ही जारी है)

हवलदार अम्बुनिशन तकनिशियन ईश्वर सिंह बुढानिया (सं. 6926422के अब जेसी-727989एक्स), 19 जुलाई 2008

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाएगी)

हवलदार अम्बुनिशन तकनिशियन प्रदीप कुमार पांडा (सं. 6928834के अब जेसी-727990एम), 06 जुलाई 2008

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाएगी)

हवलदार अम्बुनिशन तकनिशियन नरिंद्रा कुमार यादव (सं. 6930826के अब जेसी-727991पी), 01 जुलाई 2008

हवलदार अम्बुनिशन तकनिशियन रविंद्रा कुमार ए (सं. 6930878ए अब जेसी-727992एक्स), 21 जुलाई 2008

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाएगी)

हवलदार अम्बुनिशन तकनिशियन जोसेफ मथाई (सं. 6930885डब्ल्यू अब जेसी-727993ए), 31 जुलाई 2008

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाएगी)

हवलदार अम्बुनिशन तकनिशियन बी के विश्वकर्मा (सं. 6930906एफ अब जेसी-727994एच), 30 जुलाई 2008

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाएगी)

हवलदार अम्बुनिशन तकनिशियन भूपेन्द्र सिंह (सं. 6931252पी अब जेसी-727995एल), 01 जुलाई 2008

हवलदार अम्बुनिशन तकनिशियन ओम प्रकाश (सं. 6931414पी अब जेसी-727996एन), 01 जुलाई 2008

हवलदार अम्बुनिशन तकनिशियन सुनील कुमार के (सं. 6930869वाई अब जेसी-727997डब्ल्यू), 01 जुलाई 2008

हवलदार क्लर्क जी डी जै नारायण कापरी (सं. 6921385एक्स अब जेसी-727998वाई), 24 जुलाई 2008

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल देश राज (सं. 6922551एम अब जेसी-727999एफ), 01 जून 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल सरदार सिंह (सं. 6922567एक्स अब जेसी-728000एच), 01 जून 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल प्रभू दयाल चौधरी (सं. 6922574एन अब जेसी-728001एल), 11 जून 2008

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल बलविन्दर सिंह (सं. 6922575डब्ल्यू अब जेसी-728002एन), 01 जून 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल भार एम त्रिवेदी (सं. 6922577एफ अब जेसी-728003डब्ल्यू), 31 जुलाई 2008

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल बच्चिर सिंह (सं. 6922586एच अब जेसी-728004वाई), 01 जुलाई 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल राज किशोर (सं. 6922597पी अब जेसी-728005एफ), 01 जुलाई 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल बलबीर सिंह (सं. 6922601एम अब जेसी-728006के), 23 जुलाई 2008

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल गंगाधर राय (सं. 6922671एल अब जेसी-728007एम), 01 जुलाई 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल कामना प्रसाद सिंह (सं. 6922672एन अब जेसी-728008पी), 01 जुलाई 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल नरिंदर सिंह (सं. 6922682एक्स अब जेसी-728009एक्स), 01 जुलाई 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल मोहन कुमार सिंह (सं. 6922683ए अब जेसी-728010एम), 23 जुलाई 2008

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2008 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल रमेश चंद्रा (सं. 6922687डब्ल्यू अब जेसी-728011पी), 01 जुलाई 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल अलेक्स राजा कुमार (सं. 6930358के अब जेसी-728012एक्स), 01 जुलाई 2008

हवलदार एस के टी जी एस एंड सी रविंद्रा नाथ सिंह (सं. 6922006एच अब जेसी-728013ए), 23 फरवरी 2008

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी एम टी एस जोसेफ (सं. 6922155डब्ल्यू अब जेसी-728014एच), 22 जून 2008

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2008 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी एम टी हरी नाम सिंह (सं. 6922169डब्ल्यू अब जेसी-728015एल), 01 मई 2008

हवलदार एस के टी वेपन हरी दत्त (सं. 6922240वाई अब जेसी-728016एल), 22 जून 2008

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2008 से दी जाएगी)

हवलदार राज के दो बेटे मल्लभ सिंह । म. 692234/1974-85 ई. 7280/1 मल्लभ । 18 जून 2018

१. (नवम्बर १९९८) में १५० ई. के समय और भूमि पर प्रकाश करने के लिए  
जोड़ना १०) इन २००८ में ही जारी है।

हवामान एम.क.टी.टी.ए. पं.इ.सी.वा.प.स. (पं. 6923/12)ने सत्र  
क्रमांक-2280/18वर्ष 1-03 कलहते 2008

\* नवयुवक मृत्प्रेक्षा की सेवा के दौरान और भर्ती पर प्रकाश डालें (अन्य व्यंजनों में) क्योंकि 2008 में भी जारी है।

हृदयस्थान पर ज.रा. ३०० नं० मो. ग्यार्दीन सिडि. नं०. १५१२२०००० अत्र  
जे.ये. ३३५०१९५५३३. रा. जे. ३००४

[illegible]

समायोजक सचिवों के बीच में बैठक और धर्म पर प्रभाव देने के लिए  
जोखिम का अवसर (2018 में भी आया)।

हवामान विभाग के सी. वेणुगोपाल रेड्डी, 6922248777 एवं जे.सी.-  
7280219421। 01 जून 2018

हवेलदार गणेश गंगा देवपान शिवाजी नगर, 69221600, पं. जे.सो-  
728022पफ. 1. 14 जन 2009

\* नान्य ज्ञान के क्षेत्रों में भी अनेक प्रयोग करने चाहिये।  
जैसे कि (1) नान्य ज्ञान में ही नान्य ज्ञान।

हवलदार राम बंटे बालू कृपान सिंह (मं. 69222667) - २४ फेब्रु-  
72802 फ़ोन : २६७५४२०४८

\* नावय मर्यादा के रिक में वृद्धि आर भती पर प्रभाव कए बिना  
स्वेच्छा पर १०/१२ २०१८ में दो मासों ।

हमनद्वय १२९ को वे शेषा नम पावन (सं. ६०२११७५) एवं १२९०-१२९०१०००), १० मार्च २००८

\*आपका सुपेडल के रोज़ में लेनल और धीरे पर प्रभाव डाले किना  
 ब्रेकड्रम 01 नवम्बर 2008 में का जगहों ;

संलग्नक ३२ के तहत निम्न सूची में दिए गए (सं. ६९२२१४००४) अन्य विषयों पर २२९०२५४४.०४ अक्टूबर २००६

१६ वाक्य मूल्यांकन के तैयारी में लेखन और अंतर्गत पर प्रभाव डालने के लिए लेखक को। अर्थात् 2008 में ही, अर्थात्:

संयोजक: ज्ञान ज्योति निपुणता मंडल, सित ५ स. ७७३३०७७, ३०७, १०००  
३३७३३०७७७, ३३७३३०७७७

\*अध्यक्ष सूचना के एक से ठीक एक और नहीं पर प्रश्न का उत्तर दिया  
(अध्यक्ष ११ जनवरी २०१४ से के आचार्य)

संस्था का पता : ३३ रिमोन भवन, सिव्ही (सं.) ७०११०७, न. बंगल  
फ़ोन : ७१२४०१७७, ७१४ ३४४३, २००४

कई मायब मुवेसा के रोक में लोगन द्वारा भर्त्ता पर प्रभाव डाल दिता  
ज्येष्ठता II, कृषक 2008 से हो उधार्य।

हयल्लवार एस के टी जे पत्र पेट सी बाली चयन (सं. 692230) एन अय  
मैसी-723028एच), 01 जूलाई 2008

हवलदार एस के जो निम्नलिखित संपर्क घंट (मॉ. 09223034777) अथवा  
जैसे 728019एन। ए। जून 2008

\* (नायब सुदेदार को पेश में बैठन और भर्ती पर इशारा दाने वाला च्येष्टा)। जुलाई 2008 में दो हाफों।

हवलदार एस जे. जे. पंथक, राज्याभिषेक मित्र, 692230, वाई, अथ  
फोन-728030, 16 जून 2008

\* (नायब सूबेदार के रोल में वनन और भर्ती पर इम्तहान ज्ञान लिखा ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2018 से द. ज. पं.)

हवलदार एस के टी मिश्रा कर्मी चन (पे. 6922305एफ अथ  
जर्मी-728031एच), हा. 28/05/2008

हवनदास एस के श्री आनन्द गन्गाधर यादव (सं. 6922322एफ. अल  
वेसी: 7280322एल) 01 जनवरी 2008

हवलदार पद को दो मिनिमम रैंजमें लाया (नं. 692331) यह अब रोजी.  
728033एन। 0। जारी है 2018

हवलदार शशिवर राम रंजन सिंह (सं. 6921194एच अग्र जेम्स  
728034इक्यू), 01 अगस्त 2008

इय्यलदार इाहवर एम सी राजा शेड्युम एन ए.सं. 6921309एम्स अथ  
जेसी-728035आई), 01 अगस्त 2008

हवलदार एस एन से २५ मार्च १९८७ (सं. ६९२००९६ इच्छा) अथ  
जेली-७२८०३६एफ). ०३ मार्च २००८

हवलदार एस एच जे गणेशन सिंह (पं. 5382825 डबल्यू अग्र जेसो-  
728037कं), 01 जुलाई 2018

डबलदर एस एन जो के व्हाट्स वापु सिंह ( मो. 6920181742) अन्त जेसो-  
726038एस), 0) अगस्त 2008

हवलदार एस एन जी अंतर्गत नुसर्नाबस (सं. 6921947)के अंतर्गत  
जेंसी-728039जी), 01 अक्टूबर 2006

श्रीलक्ष्मी वेंकटराव सूर्यदास शिवाजी नगर दाम (सं. 13956566) इन्डियन  
सेंसी-728040 को. डी. जून 1993

हवलदार ओ एल एं दुर्गा आर (नं 6920981एक्स डब्ल्यू जेम्स-728041एम), 01 जून 2018

नर किशोर कर्मोद  
अथ रत्न

**पुनः संशोधनम्**

अप्रैल 2008 : राष्ट्रपति सहाय, 'नव्योन्मादित'  
नारायण सेवा मण्डलालय आधुनिकीकरण सेवा में  
अप्रैल 2008 : राष्ट्रपति सहाय, 'नव्योन्मादित'  
नारायण सेवा मण्डलालय आधुनिकीकरण सेवा में  
अप्रैल 2008 : राष्ट्रपति सहाय, 'नव्योन्मादित'  
नारायण सेवा मण्डलालय आधुनिकीकरण सेवा में

30 जून 2008 अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, पदोन्नति करते हैं :--

नाम
(सर्वश्री/श्रीमती)
राज
गोपी कान्त पाइक
रन्जीत कुमार रे
मधुबाला
सुभाष चन्द
प्रोमिला कुमारी माहुर
संजय शर्मा
सतनाम कौर बहल
लक्ष्मी प्रसाद नम्बूरी
अमर नाथ बत्रा
रमेश चन्द
सुनीता मलिक
रजनी लीगड़ा
भजन सिंह

2. अधिकारियों की निजी सचिव के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के आधार पर है :--

- (क) वह पदोन्नति पूर्णतः अस्थायी आधार पर की गई हैं तथा प्रशस्तनिक कारणों से बिना किसी सूचना दिए समाप्त की जा सकती है।
- (ख) उपर्युक्त पद पर स्थायी पदोन्नति के लिए अधिकारी का न तो कोई दावा होगा और न ही उनकी अस्थायी नियुक्ति की अवधि की खरिदता के लिए गिना जाएगा।

शंकर सिंह  
उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

#### रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 546, दिनांक 24 अक्टूबर 2008--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :--

निम्नलिखित अतिरिक्त सीसीई (आर एंड डी) (नार्थ) को 26.06.2008 से रक्षा अनुसंधान तथा विकास सेवा में सीसीई (आर एंड डी) (सी डब्ल्यू एंड ई) (ग्रुप 'ए') के रूप में वेतनमान रु. 16,400--20,000/- पर :--

- (क) श्री अभय कुमार, सीसीई (आर एंड डी) (नार्थ)
- (ख) श्री शिव कुमार गुप्ता, सीसीई (आर एंड डी) (नार्थ)

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :--

श्री ए के ठाकुर, अतिरिक्त सीसीई (आर एंड डी) (सैंट्रल) को 26.06.2008 से सीसीई (आर एंड डी) (सैंट्रल) के रूप में वेतनमान रु. 16,400--20,000/- पर :--

टी अब्दुल्जाफ़  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

#### वित्त प्रभाग

सं. 547, दिनांक 24 अक्टूबर 2008--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में श्री जयन्ती प्रसाद गुप्ता, सहायक वित्तीय सलाहकार को उनकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 30.09.2008 (अपराह) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

राम चरण मीना  
सहायक वित्तीय सलाहकार (स्था.)

#### सेना शाखा

सं. 548, दिनांक 27 अक्टूबर 2008--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से उनके द्वारा सेवानिवृत्ति को साधारण आयु प्राप्त कर लेने से पूर्व उनके अनुरोध पर व्यक्तिगत कारणों से सेना सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं तथा उनको अधिकारियों के नियमित आरक्षी कोटे (क्लास X) अधीन एस ए आई 10/S/63 यथा संशोधित में स्थानांतरित करते हैं :--

#### नियमित सेना

##### स्थायी कामीशन

(आईसी-41637) ले. कर्नल परमजीत सिंह, एसी, 07 मई 2005 (अ.प्र.)

(आईसी-40176) ले. कर्नल कुलकेरा जान वरगिस, एसी, 26 अप्रैल 2005 (अ.प्र.)

(आईसी-42276) ले. कर्नल अमरिक सिंह दुआ, एसी, 17 मई 2005 (अ.प्र.)

(आईसी-52044) मेजर हरमित सिंह राय, ईएमई, 07 जून 2005 (अ.प्र.)

(आईसी-41705) ले. कर्नल शरणदीप, ईएमई, 31 मार्च 2005 (अ.प्र.)

(आईसी-50793) ले. कर्नल आशीष दत्ता, सिग्नल्स, 09 जुलाई 2005 (अ.प्र.)

(आईसी-41707) ले. कर्नल मनमोहन सिंह बिल्वु, सिग्नल्स, 31 मार्च 2005 (अ.प्र.)

(आईसी-47095) मेजर अतुल अजमानी, सिग्नल्स, 10 मई 2005 (अ.प्र.)

(आईसी-45158) कैप्टन थिनांट बालराम नायर, सिमल्ल, 08 जून 2005 (अ.प्र.)

(आईसी-48697) मेजर गणेश आदव, सिमल्ल, 05 मार्च 2005 (अ.प्र.)

(आईसी-449186) ली. कर्नल शंख शिराह चौधरी, सिमल्ल, 16 नवम्बर 2006 (अ.प्र.)

(आईसी-42869) ली. कर्नल राव महेश्वर, सिमल्ल, 16 जुलाई 2007 (पृ.व.)

(आईसी-51746) ली. कर्नल अय्यर सुन्दर राज मेले, सिमल्ल, 11 अगस्त 2007 (अ.प्र.)

(आईसी-48873) ली. कर्नल एन आर प्रह्लादाय्यार, इन्दौर, 31 जुलाई 2005 (अ.प्र.)

(आईसी-41231) ली. कर्नल राजवंत राय रेड्डी, इन्दौर, 01 अगस्त 2005

(आईसी-49454) ली. कर्नल आनंद प्रियदास तिमोथे, इन्दौर, 16 जुलाई 2005 (अ.प्र.)

(आईसी-42952) ली. कर्नल पद्मजीत सिंह मौवा, इन्दौर, 17 जून 2005 (अ.प्र.)

(आईसी-42577) ली. कर्नल संगीत एन बोहरा, इन्दौर, 26 अप्रैल 2005 (अ.प्र.)

(आईसी-48770) ली. कर्नल (सलेक्शन) सेव्ठा राजा शिवाल, एसएम इन्दौर, 03 जुलाई 2005 (अ.प्र.)

(आईसी-49020) ली. कर्नल (सलेक्शन) अरवि कुमार, इन्दौर, 27 जून 2005 (अ.प्र.)

(आईसी-45271) ली. कर्नल आनन्द कुमार सचदेव, इन्दौर, 17 मई 2005 (अ.प्र.)

(आईसी-48002) ली. कर्नल (सलेक्शन) आदव बन्ने, इन्दौर, 26 अप्रैल 2005 (अ.प्र.)

(आईसी-52100) मेजर बलराज सिंह सैथू, इन्दौर, 29 अप्रैल 2005 (अ.प्र.)

(आईसी-42560) ली. कर्नल अस्टीन मैथी, एअरम, 31 अक्टूबर 2005 (अ.प्र.)

(आईसी-45694) ली. कर्नल भुलभूषण भास्करा, एअरम, 15 अक्टूबर 2005 (अ.प्र.)

(आईसी-53811) मेजर वरुण बक्सरी, एअरम, 19 दिसम्बर 2005 (अ.प्र.)

श्री सुभाष अकबरी  
संयुक्त निदेशक,  
एअरम/एअर

जी एस ब्रंच

गुडि पत्र

सं. 549, दिनांक 27 अक्टूबर 2008--भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं. 15 के द्वारा दिनांक 06 नवम्बर 1999 को शीर्षक 'गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन और सूचनाएं' तथा उप शीर्षक 'नान परवाना' के अंतर्गत प्रकाशित की गई, को एन.ए. द्वारा निम्नलिखित प्रकार से संशोधित किया जाता है :-

के लिए :

टी ए-42192 ली. कर्नल गणेश कुमार बरार

पढ़ें :

टी ए-42192 ली. कर्नल गणेश सिंह

जय राज  
अवर सचिव

सेना शाखा

निर्धारित सेना

(अल्प सेवा आयोग)

गुडि पत्र

सं. 550, दिनांक 27 अक्टूबर 2008--भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में 21 अप्रैल 2007 को प्रकाशित अधिसूचना के शीर्षक अनिवारित सेना (अल्प सेवा आयोग) के अंतर्गत उपशीर्षक ली. के पद पर के अंतर्गत प्रकाशित सूचना निम्नलिखित रूप में संशोधित की जाती है :-

पैर 1, तालिका के अन्तर्गत :-

के लिए : 011788एम सीनो दक्षिण ए ए डी

पढ़ें : 011788एम सीनो दक्षिण ए ए डी

नीलेश चौधरी  
मेजर  
सहायक सेना सचिव शर्मा

गुडि पत्र

सं. 551, दिनांक 27 अक्टूबर 2008--भारत के राजपत्र सं. 312 में दिनांक 25 जून 2005 को शीर्षक निधमि सेना स्थायी कमीशन एवं उप शीर्षक कप्तान से मेजर की अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :

आई सी : 53221 एअर. निरंजण राजाराम, सिमल्ल

के सामने : 16 दिसम्बर 2004

के बदले पढ़ा जाए : 10 दिसम्बर 2004

जसवंत सिंह  
संयुक्त निदेशक  
एमएस 8सी

## थल सेना विभाग

## शुद्धि पत्र

सं. 552, दिनांक 29 अक्टूबर 2008--11 अप्रैल 1998 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में शीर्षक 'नियमित सेना'--सैनिक दन्त चिकित्सा कोर (अल्पकालीन कमीशन) उपशीर्षक 'लैफ्टि. से कैप्टन के पद पर' डी एस-11899ए जो के तमूली के नाम के सामने :-

के स्थान पर : 19-08-1997

पढ़ा जाए : 19-02-1997

## शुद्धि पत्र

सं.--दिनांक----02 फरवरी 2002 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना में शीर्षक 'नियमित सेना'--सैनिक दन्त चिकित्सा कोर (स्थायी कमीशन) उपशीर्षक 'कैप्टन से मेजर के पद पर' जो के तमूली (डीआर-10496ए) के नाम के सामने :-

के स्थान पर : 19-08-2001

पढ़ा जाए : 19-02-2001

डी के तनेजा

मेजर जनरल

एडिजोडिएस

## MINISTRY OF DEFENCE

## FINANCE DIVISION

New Delhi, the 8th November 2008

No. 531, dated 14th October 2008. The President is pleased to appoint Smt. A.K. Chakraborty, C.S.S., as Deputy Financial Adviser (Deputy Secretary to the Ministry of Defence) with effect from forenoon of 1st Nov. 2008 up to July, 2009 and further orders.

RAMESH KUMAR,

Deputy Secy (F)

## ARMY BRANCH

No. 532, dated 14th October 2008. The President is pleased to make the following appointments vide M.O. 1579 as amended:

## REGULAR ARMY

## ARMY MEDICAL CORPS

## OFFICER-IN-CHARGE COMMISSION

To be Captain (on probation)

DS-122 (2). Purn. Bilhan Verma, M.B.B.S., with seniority for pay and promotion from 01.08.2006 includes 06 months and 20 days for paid job of House Surgeon in the Dept. of Otolaryngology, Singu Dental College, Muz R. Dev Dental Hospital, Lucknow and Durbhanga P.D. during the period from 25.11.1999 to 28.04.2000 which is not count for gratuity.

Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India, dated 07.06.2008 in so far as it pertains to the officer is hereby cancelled.

## SUBJECT SERVICE COMMISSION

To be Captain (on Probation)

Vidhyanathan, M.B.B.S. (DS-127 (2)) AD (supd) 1.10.01-2007 with seniority for pay and promotion from 01.10.2004 includes 06 months and 20 days for undergoing post graduation course of Master of Dental Surgery (MDS) in Oral Pathology for a maximum of three years from Sri Ramachandra Dental College, Porur, Chennai which will not count for gratuity.

Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India, dated 11.01.2008 in so far as it pertains to the officer is hereby cancelled.

The President is pleased to make the following appointments for a period of two years under M.O. 1579 as amended:

## REGULAR ARMY

## ARMY MEDICAL CORPS

## SUBJECT SERVICE COMMISSION

To be Captain (on probation)

DS-118 (2) (1) (1) (1) (1) AD (supd) 1.10.01-2007 includes 06 months and 20 days for pay and promotion from

19.08.1996 (includes 06 months ante date for paid job of Junior House Surgeon in the Regional Dental College and Hospital, Umwani, Jharkhand, not count for gratuity).

Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India, dated 17.01.1998 in so far as it pertains to the above mentioned officer is hereby cancelled.

DK TANEJA

Maj Gen

Addl. DGIDS

## COAST GUARD HEADQUARTERS

No. 533, dated 14th October 2008. The President is pleased to appoint the following as Assistant Commandant (GD Tech) in Coast Guard with effect from the date indicated against each:

## GENERAL DUTY

Name (Sd/-), Appointment, Date of Joining & Personal No.

Nitin Sharma, Appointed as Assistant Comdt (GD PN) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500 - on probation of two years, 25 Jun 2007, 0711P.

Akshay Kumar Malapatra, Appointed as Assistant Comdt (GD PN) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500 - on probation of two years, 25 Jun 2007, 0712Q.

Shreenath V., Appointed as Assistant Comdt (GD PN) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500 - on probation of two years, 25 Jun 2007, 0713S.

Ashtvini Kumar, Appointed as Assistant Comdt (GD PN) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500 - on probation of two years, 25 Jun 2007, 0714V.

Deep Chandra Mathpal, Appointed as Assistant Comdt (GD PN) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500 - on probation of two years, 25 Jun 2007, 0715X.

Dilip Chakravarti, Appointed as Assistant Comdt (GD PN) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500 - on probation of two years, 25 Jun 2007, 0716a.

Pawan Kumar Yadav, Appointed as Assistant Comdt (GD PN) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500 - on probation of two years, 25 Jun 2007, 0717D.

Gohil J., Appointed as Assistant Comdt (GD PN) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500 - on probation of two years, 25 Jun 2007, 0718f.

Ajay Kumar Adhikari, Appointed as Assistant Comdt (GD PN) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500 - on probation of two years, 25 Jun 2007, 0719j.

Ratul Gantayat, Appointed as Assistant Comdt (GD PN) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500 - on probation of two years, 25 Jun 2007, 0720g.

Praveen Kumar S., Appointed as Assistant Comdt (GD PN) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500 - on probation of two years, 25 Jun 2007, 0721d.



Ashwin Deenar Aptre, Appointed as Assistant Comdt (GD/PN) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on probation of two years, 25 Jun 2007, 0722P

Samar Singh Sandhu, Appointed as Assistant Comdt (GD/PN) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on probation of two years, 25 Jun 2007, 0723Q

Rohitash Kumar, Appointed as Assistant Comdt (GD/PN) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on probation of two years, 02 Jul 2007, 0724S

Vijay Banta, Appointed as Assistant Comdt (GD/PN) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on probation of two years, 25 Jun 2007, 0725V

Rakesh Kumar, Appointed as Assistant Comdt (GD/PN) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on probation of two years, 04 Jul 2007, 0726X

Daisy, Appointed as Assistant Comdt (GD/PN) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on probation of two years, 04 Aug 2007, 0727C

Shruti Smriti Tripathy, Appointed as Assistant Comdt (GD/PN) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on probation of two years, 04 Aug 2007, 0728D

Sunita Sharma, Appointed as Assistant Comdt (GD/PN) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on probation of two years, 04 Aug 2007, 0729E

Kanju Mala Singh, Appointed as Assistant Comdt (GD/PN) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on probation of two years, 05 Aug 2007, 0730J

Shakti Singh Shekhawat, Appointed as Assistant Comdt (GD/PN) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on probation of two years, 23 Dec 2007, 0731L

Shri Ram, Appointed as Assistant Comdt (GD/PN) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on probation of two years, 23 Dec 2007, 0732M

Ravi Kumar, Appointed as Assistant Comdt (GD/PN) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on probation of two years, 23 Dec 2007, 0733P

Kundan Singh, Appointed as Assistant Comdt (GD/PN) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on probation of two years, 23 Dec 2007, 0734Q

Saurabh, Appointed as Assistant Comdt (GD/PN) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on probation of two years, 23 Dec 2007, 0735S

Karan Kishore, Appointed as Assistant Comdt (GD/PN) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on probation of two years, 23 Dec 2007, 0736V

Abhishek Ganguly, Appointed as Assistant Comdt (GD/PN) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on probation of two years, 23 Dec 2007, 0737X

Sumit Dhiman, Appointed as Assistant Comdt (GD/PN) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on probation of two years, 23 Dec 2007, 0738C

Himanshu Mishra, Appointed as Assistant Comdt (GD/PN) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on probation of two years, 23 Dec 2007, 0739D

Amir Dhyani, Appointed as Assistant Comdt (GD/PN) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on probation of two years, 23 Dec 2007, 0740E

Sharad Shanker Pandey, Appointed as Assistant Comdt (GD/PN) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on probation of two years, 23 Dec 2007, 0741J

Anoop Singh, Appointed as Assistant Comdt (GD/PN) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on probation of two years, 23 Dec 2007, 0742L

Sudir Shukla, Appointed as Assistant Comdt (GD/PN) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on probation of two years, 23 Dec 2007, 0743M

Praveen Kumar Khathkar, Appointed as Assistant Comdt (GD/PN) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on probation of two years, 31 Dec 2007, 0744P

#### TECHNICAL

Gulab Singh, Appointed as Assistant Comdt (Tech) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on probation of two years, 24 Aug 2007, 4149D

S K Kalra, Appointed as Assistant Comdt (Tech) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on probation of two years, 24 Aug 2007, 4150E

V B Patangare, Appointed as Assistant Comdt (Tech) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on probation of two years, 24 Aug 2007, 4151J

R V Singh, Appointed as Assistant Comdt (Tech) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on probation of two years, 24 Aug 2007, 4152L

B S Sikarwar, Appointed as Assistant Comdt (Tech) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on probation of two years, 24 Aug 2007, 4153M

R K Singh, Appointed as Assistant Comdt (Tech) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on probation of two years, 24 Aug 2007, 4154P

Mohit Kumar, Appointed as Assistant Comdt (Tech) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on probation of two years, 10 Aug 2007, 5101Q

Jamdade Sarang Suresh, Appointed as Assistant Comdt (Tech) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on probation of two years, 03 Aug 2007, 4155Q

Mansudi Venkaiah, Appointed as Assistant Comdt (Tech) in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500/- on probation of two years, 01 Feb 2008, 4156S

Rakesh Datta, Appointed as Assistant Commandant in the Pay Scale of Rs. 8,000-275-13,500 on probation for two years, 13 Jan 2008, SI 628.

REGULAR ARMY  
Under SSC/ACG

#### DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANIZATION

No. 535, dated 20th October 2008. The President is pleased to make the following appointments:

The undermentioned individuals are to be temporary scientists (W) Group IV in the Defence Research and Development Service on probation for a period of two years with effect from the date shown against their names in the Pay scale of Rs. 8,000-275-13,500.

Name, Post, Lab & Date of Joining

Pooja Nair, Vimala, ARDC, Pune, 2 Apr 2006

Vinod Kumar, ARDC, Pune, 23 Apr 2006

Kanakesh Ghatge, DRDO, Pune, 14 Apr 2005

Susil Kumar Chakraborty, ARDC, Pune, 14 Jan 2007

Blasikam Rao Sagar, NS, Hyderabad, 27 Apr 2006

Archana, DRDO, Mysore, 10 Aug 2006

Pranab Kumar Chatterjee, DRDO, Hyderabad, 01 Nov 2006

Karishma Meshram, DRDO, Hyderabad, 02 Nov 2006

Manish Kumar, DRDO, Hyderabad, 08 Sep 2006

Sukhartha Gogoi, DRDO, Pune, 13 Feb 2006

Mehangap, Kumar Singh, DRDO, Pune, 18 Dec 2006

Kanakesh Kumar, INS, Shivadi, 27 Apr 2006

Surek K. Gaur, NSRI, Vishakhapatnam, 02 Nov 2006

S. Ramesh, DRDO, Hyderabad, 27 Apr 2006

#### ARMY BRANCH

No. 535, dated 20th October 2008. The President is pleased to make the following appointments:

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

The undermentioned Gentleman Cadet of 14 University Entry Scheme Course is granted Permanent Commission in the rank of Lt with effect from 2006 (F.N.) under the terms and conditions of AI 795, as amended. The Officer is also granted two years ante-dated seniority for pay and promotions with 13 Jan 2004 under AI 795, as amended.

C-605 Yogesh Chandra (IC-68463N), Engng. with the seniority below C-328 S. Joshi (IC-68462L), EME, whose name has been published in the Gazette of India dated 07 Jul 2007.

#### SHORT SERVICE COMMISSION

To be Lt

The undermentioned 154 officers of SSC/N 10-85 course have completed their Short Service Commission on probation for six months commencing from 22 Mar 2008. They are granted Short Service Commission in the rank of Lieutenant for a period of five years with 22 Mar 2008 under the provisions of SAI 3 S 98, as amended.

SS No., Name & Unit/Service

SS-42867Y, Sanjeev Singh, Inf

SS-42868I, Anshuman Patel, Inf

SS-42869K, Shroffkar Sangram Abhay, AUC

SS-42870Y, Kuldeep Kumar Singh, Inf

SS-42871B, Vishnu Singh, Inf

SS-42872K, Arun Dev Singh Jamwal, Inf

SS-42873M, Parag Singh, Inf

SS-42874P, Arun Singh Panwar, Inf

SS-42875X, Shivanukh Joseph Mathew, Inf

SS-42886K, Satendra Singh Negi, Sigs	SS-42927H, Ashutosh Verma, Arty
SS-42887M, Bikash Singh, Engr	SS-42928L, Sandeep Singh, Meeh
SS-42888P, Ratnraj Choudhary, Arty	SS-42929N, Shitanshu, AC
SS-42889X, Dhabhai Dhruva Devkinandan, AAD	SS-42930H, Ashish S Upadhyay, AOC
SS-42890M, Bishal Singh Thapa, Inf	SS-42931L, Lunnunthang Khongsai, Inf
SS-42891P, Aditya Khanka, Inf	SS-42932N, Ripdaman Singh Gill, AC
SS-42892X, Sujay S Hegde, Inf	SS-42933W, Abhay Sharma, Inf
SS-42893A, Shreejit Pillai, Inf	SS-42934Y, Shailendra Kumar, AC
SS-42894IL, Praveen Kumar, ASC	SS-42935F, Rajendra Panchal, Inf
SS-42895L, Kumar Adarsh, Inf	SS-42936K, Anand Yadav, Arty
SS-42896N, Pushkar Kumar Jha, EME	SS-42937M, Himanshu Dhyani, ASC
SS-42897W, Prabal Kumar Agniliotri, Arty	SS-42938P, Sarabjeet Singh Reen, Inf
SS-42898Y, Anirudh Sharma, Inf	SS-42939X, Arun Rahar, Sigs
SS-42899F, Ajeet Singh, EMI	SS-42940M, Ugen Donjee Bhutia, Inf
SS-42900L, Roshan Pratap Chavan, Engr	SS-42941P, Karthikeyan P, Arty
SS-42901N, Vikram Singh, Inf	SS-42942X, Prabhakar D, Inf
SS-42902W, Arun Sangwan, Arty	SS-42943A, Jaipal Singh Sandhu, Inf
SS-42903Y, Tanuj Deepak Rao Mandlik, Inf	SS-42944IL, Uday Kumar Singh, EME
SS-42905K, Sivaram G, Engr	SS-42945L, Kamal Thakur, Inf
SS-42906M, Arkit Sharma, Arty	SS-42946N, Parmender Shokeen, Inf
SS-42907P, Mayanglambam Gagatin Singh, Inf	SS-42947W, Ravi Rai Bhayana, Engr
SS-42908X, Anjesh Kumar Yadav, EME	SS-42948Y, Rana Ravinder Dhawan, Arty
SS-42909A, Preetam Singh Kunwar, Inf	SS-42949F, Shekhar Singh, Engr
SS-42911X, Sarjay Singh Nagar, Inf	SS-42950W, Ravi Pratap Singh, Engr
SS-42912A, Ashish Mohanty, Inf	SS-42951Y, Shakti Singh Parmar, EME
SS-42913IL, Vikramaditya Tyagi, Arty	SS-42952F, Inderjeet Malik, Arty
SS-42914L, Prakash Brahma, AAD	SS-42953K, Abhinav Joshi, Inf
SS-42915N, Siddharth Srivastav, Inf	SS-42954M, Manish Sandilya, Arty
SS-42916W, Arvind Singh Shekhawat, Inf	SS-42955P, Ashok Kumar, Engr
SS-42917Y, Abhinav Bajpai, Inf	SS-42956X, Sandeep Singh Beniwal, Inf
SS-42918F, Pankaj Dwivedi, AOC	SS-42957A, Abhinav Pratap Singh, Inf
SS-42919K, Dinesh Chahal, Inf	SS-42958IL, Kuldeep Chaudhary, Sigs
SS-42920Y, Neeraj Sharma, Inf	SS-42959L, Khamender Singh, Inf
SS-42921F, Nitin P Kamat, Engr	SS-42960A, Kulkarni Rishikesh Chandrakant, Inf
SS-42922K, Ravinder Kumar, EME	SS-42961H, Charanjit Singh Ahlowalia, AOC
SS-42923M, Chakrasen Singh, Inf	SS-42962L, Manohar Krishnan, Inf
SS-42924P, Emmanuel Francis, Inf	SS-42963N, Rahul Katoch, Engr
SS-42925X, Varun Sethi, Arty	SS-42964W, Singh Vivek Babban, Sigs
SS-42926A, Zorinder Singh, Inf	SS-42965Y, Vikram Mehra, Arty



SS-42670H, Dharminder Singh Chouhan, Inf	SS-42709K, Panicker Shrivakumar Unnikrishna, Inf
SS-42671L, Sameer Kaushal, Inf	SS-42710Y, Samarjeet, Inf
SS-42672N, Anil Urs, Inf	SS-42711F, Vinayak Iyer, Inf
SS-42673W, Satish Mangalmurti Gadre, AOC	SS-42712K, Bhanu Pratap Singh, Inf
SS-42674Y, Chungthung Jamatia, Engr	SS-42713M, Mohit Kumar Bansal, Inf
SS-42675F, Raju Om Dattatray, Inf	SS-42714P, Amit Chaudhary, Inf
SS-42676K, Kadak Swapnil Anil, Inf	SS-42715X, Sisir Shetty, EME
SS-42677M, Shakti Singh Negi, Engr	SS-42716A, Manoj Kumar Sankhyan, Inf
SS-42678P, Deepak Choudhary, Arty	SS-42717H, Gosavi Kunal Munnagir, Arty
SS-42679X, Sandeep Singh Dadhwal, Inf	SS-42718L, Silas Sinjalee, AOC
SS-42680M, Ajit Bhardwaj, Arty	SS-42719N, Vishal Rakshe, Inf
SS-42681P, Deepak Sumbria, Inf	SS-42720H, Shozab Rahman, Inf
SS-42682X, Vipul Narayan, Inf	SS-42721L, Vishal Chhetri, Inf
SS-42683A, Abhay Gupta, Inf	SS-42722N, Shetye Vikrant Shashikant, Arty
SS-42684H, Santaj Guleria, Arty	SS-42723W, Pravesh Shah, Inf
SS-42685L, Tuskar Sharma, AC	SS-42724Y, Narender Singh, JAG
SS-42686N, Nitin Kumar Tewari, Inf	SS-42725F, Navneet Singh, Inf
SS-42687W, Pushap Raj, Inf	SS-42726K, Lokendra Singh, Arty
SS-42688Y, Pradeep UK, Inf	SS-42727M, Bhawani Singh, AC
SS-42689F, Surya Pratap Singh, Arty	SS-42728P, Ashutosh Rawat, Engr
SS-42690W, Vikas, Jag	SS-42729X, Deepak Kumar Bista, Inf
SS-42691Y, Gaikwad Sushil Ramechandra, Inf	SS-42730M, K Tony Joseph, Sigs
SS-42692F, Siddhant Chhabber, Inf	SS-42731P, Sachendra Singh, Arty
SS-42693K, Sachin Andotra, ASC	SS-42732X, Arun George Abraham, Inf
SS-42694M, Vivek Vashisht, Arty	SS-42733A, S Manickavel, AAD
SS-42695P, Tiwari Sandip Kumar Shriram, Engr	SS-42734H, Harish Yadav, Inf
SS-42696X, Gaonav Bajetha, Inf	SS-42735L, Amman Malaikan, Inf
SS-42697A, Prabhat Uniyal, Sigs	SS-42736N, Sanjay Guleria, AC
SS-42698H, Manish Kumar, Arty	SS-42737W, Nalin Slathia, Inf
SS-42699L, Aman Kumar Nain, Inf	SS-42738Y, Paveljeet Singh, AOC
SS-42700P, Shivendra Singh, EME	SS-42739F, Dey Rahul Pijush, AAD
SS-42701X, Bhuvaneshwar S Rathore, Inf	SS-42740W, Ranjitsinha Ajitsinha Patil, Engr
SS-42702A, Janmajay Singh, Inf	SS-42741Y, Anil Kumar, Inf
SS-42703H, Rejoice Phaomet, Inf	SS-42742F, Anupam Yadav, Arty
SS-42704L, Jeevendata Kumar Sharma, Mech	SS-42743K, Saroj Kumar Baitha, ASC
SS-42705N, Pramod Kamble, Arty	SS-42744M, Jha Amitkumar Bhogendra, EME
SS-42706W, Sonny Gosain, Inf	SS-42745P, Tutyung Shatsang, Inf
SS-42707Y, Manoj Joshi, Inf	SS-42746X, Pranir Singh, Inf
SS-42708F, Paramjeet Singh, Sigs	SS-42747A, Kunal Priyadarshi, Inf

SS-42748H, Jyoti Chakrabarti, Arty	SS-42787F, Jitender Kumar Singh, Inf
SS-42749L, Pranas Chakrabarty, Inf	SS-42788K, Subarna Chakrabarty, Inf
SS-42750A, Kumar, J. Subarna, Inf	SS-42789M, Ananta Kumar Sanyal, Mx
SS-42751H, Samrat Singh Chowdhury, Mx	SS-42790F, Sita Chakrabarty, Nitivandil, L
SS-42752L, A. L. Chakrabarti, Inf	SS-42791K, Kallu, A. Singh
SS-42753A, Anand Singh, JAG	SS-42792M, Deepika, Jessam, JAGR
SS-42754A, Ananta Kumar Singh, ASI	SS-42793P, Samir, J. Srivastava, LMD
SS-42755A, Aditya, Singh, ASG	SS-42794X, Anshu Vajargadia, Arty
SS-42756F, Rana, Pallavi, Ldr	SS-42795A, Anshu, B. Barik, ASG
SS-42757E, Nita, Shikha, AOC	SS-42796H, Prashant Sharma, AOC
SS-42758M, Gaurav Singh, Arty	SS-42797L, Desamukh, Anand, Sureshchandra
SS-42759P, Parvati, Saha, Mx	SS-42798X, Anand, Chakrabarty, Inf
SS-42760A, Anand, Samrat, Arty	SS-4299W, Ananta Kumar Bhatnagar, AOC
SS-42761M, Ananta Kumar, Inf	SS-42800A, Ananta Kumar, JAG
SS-42762P, S. S. Chakrabarty, Inf	SS-42801H, Anand Chakrabarty, Arty
SS-42763A, Anand Singh, Arty	SS-42802L, Samir, Anand, Inf
SS-42764A, Ananta, Singh, Ananta, Rao, Inf	SS-42803N, Gaurav, Ananta, JAG
SS-42765H, Nandini, Kanyal, Inf	SS-42804W, Prashant, Singh, Inf
SS-42766L, Rakesh, Malik, Arty	SS-42805A, Mahesh, Singh, Inf
SS-42767N, Nita, Kumar, Ldr, Inf	SS-42806F, Ananta, Chakrabarty, Inf
SS-42768A, Samrat, Anand, Subarna, AOC	SS-42807K, J. Kumar, Inf
SS-42769F, Ananta, Singh, Inf	SS-42808M, Ananta, Ananta, AOC
SS-42770N, Ananta, Singh, Arty	SS-42809P, Ananta, Singh, Inf
SS-42771W, Prashant, Chakrabarty, Inf	SS-42810K, Rajendra Chakrabarty, JAGR
SS-42772A, Deepika, Mallick, Inf	SS-42811M, Mohan Krishna Kumar Hira
SS-42773L, Ananta, Chakrabarty, Inf	SS-42812P, Ananta, Raj, Singh, Inf
SS-42774K, Deepak, Sharma, JAGR	SS-42813X, Parthasarathy, N., Arty
SS-42775M, Ananta, Manoj, Arty	SS-42814A, Subarna, Mahapatra, Inf
SS-42776P, Rakesh, Kumar, Inf	SS-42815H, Chandra, Chakrabarty, Ram
SS-42777A, Ananta, Joseph, JAG	SS-42816L, Chandra, Singh, Wazir, Inf

SS-42826P, Bhahani Sankar Mohanty, Inf

SS-42827X, Jasprit Singh Dhillon, Inf

SS-42828A, Sandeep Sahi, Meeb

SS-42829H, Sangram Singh Deora, Inf

SS-42830X, Saurabh Sharma, Arty

SS-42831A, Amit Mohan Sharma, Arty

The undermentioned six officers of SSC (Tech)-27 Course were granted Short Service Commission (on probation) in the rank of Lt under the terms and conditions of AI 193. Subsequently, on successful completion of training, their Short Service Commission on probation have been confirmed for a period of five years wef 22 Sep 2007. They have also been granted two years ante-date seniority for pay and promotion for possession of technical qualification from 22 Sep 2005 under SAI 1-S/94 as amended :-

SS No., Name, Arm/Service

SS-42649 A, Ravinder Pal Singh, Pngt

SS-42650 P, Kapil Jhingan, EMI

SS-42651 X, Manish Deparkaj, Engr

SS-42652 A, Mohit Kapoor, Sigs

SS-42653 H, Shiv Singh Shekhawat, EMI

SS-42654 L, Varun Parmar, AAD

#### SHORT SERVICE COMMISSION (On Probation)

The undermentioned GC of 14 University Entry Scheme Course is granted Short Service Commission (on probation) for the period of his training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of Lt with effect from the date shown against his name under the provisions of AI 2.93, as amended :-

IMA No., Name, SS No, Arm/Service, Date of SSC on Probation

U:605 Yogesh Chandra, 42067A, Engrs, 01 Jul 2004

NILESH CHOWDHARY

Maj

AMS 8B

...

#### (AIR BRANCH)

No. 536, dated 21st October, 2008. The President is pleased to confirmed the under mentioned award officers wef the date stated against their names who were granted Permanent Commission (on probation)

#### INDIAN AIR FORCE

##### ADMINISTRATIVE BRANCH

Fg Offr B Srinivasa Rao (29072), R Ranjith (29074), Pratyush Kumar Mishra (29075), KL Parthasarathi (29076),

Kale Vinay Prabhakar Rao (29077), Pradeep Kumar Gupta (29078), G Srinivas Reddy (29079), Akshay Kumar (29080), GS Gandyok (29082), S Shyam Sunder (29083), Srinivasa Rao katramuri (29084), NS Mehla (29085), Rajiv Chauhan (29086) and Sunil Sivathanuan Prasanna Kumar (29087) wef 17 Jun 06

##### LOGISTICS BRANCH

Fg Offr R Sathish Nair (29088) and R Baskaran (29089) wef 17 Jun 06

##### ACCOUNTS BRANCH

Fg Offr TV Gopa Kumar (29090), GD Sharma (29091), Sauresh Gangadharan (29092) and Vikas Soni (29093) wef 17 Jun 06

##### EDUCATION BRANCH

Fg Offr M Subba Rao (29094), US Sahu (29095), Manoj Kumar (29096) and Sreeprakash J (29097) wef 17 Jun 06

##### FLYING (PILOT) BRANCH

Fg Offr Vishak Nair (28993), Alok Ablawat (28994), Arun David Dilip Chuguley (28995), Gaurav Singh (28996), Chandra Prakash (28998), Arunabh Ghosh (28999), Anil Hyanki (29000), Abhishek Tewari (29001), Rajat Hans (29002), Ajay Dasarathi (29003), Gaurav Mittal (29005), Omar Browne (29006), Praveen (29007), Manu Akhouri (29008), Rohit Choudhary (29009), Pradeep Kumar Thakur (29010), Christie George Vargese (29011), Manish Sharma (29012), Rasikeshwar Rana (29013), Shubhanshu Shukla (29014), Utkarsh Singh (29015), Kuvendra Pal Singh (29017), Shreyas R Adhav (29018), Akshay Saxena (29020), Nayan S Bahua (29021), Nikhil Mehrotra (29022), Rahul Rawat (29023), Gagan Sikri (29024), Nilesh K Pandey (29025), Pawan Kumar Kadyan (29026), Manish Kumar Pandey (29027), Vikramaditya Jaiswal (29028), Hariom Dubey (29029), Vishal Mishra (29030), Abhijeet Guha (29031), Sachin Kumar (29032), Jaspreet Singh Sandhu (29033), KMA Ayush (29034), Shiva Thakur (29035), Sachin Sood (29036), GR Kharche (29037), Gaurav Sharma (29038), Anut Kumar Bharmoria (29039), Pritish Samran Singh (29040), Harsh Pandey (29041), Bharat Malhotra (29042), Tapas Ojha (29043), Nishit Tare (29045), Shwetank Singh Dagur (29046), Amit Kumar Bhadoo (29047), Abhishek (29048), Siddharth Chaturvedi (29049), T Dayal Sharma (29051), Sudhanshu Rai (29052), Hardeep Singh Bhatia (29053), RK Sinha (29054), Shounak Kulkarni (29055), Anshul Khatri (29056), Rohan Dinesh Mangrulkar (29058), Anand Kumar Yadav (29059), Bhushan S Rao (29060), Dharmendra Sunda (29061), Amber Agrawal (29062), Shivam PK Wason (29063), Ranvir Kumar Thakur (29064), Ravva Raja Vivek (29065), Rohit Ranjan (29066), Kshetrimayum Upendra Singh (29067), Gala Hitesh Dinesh (29069) and Biswajit Dash (29070) wef 17 Jun 06

N VIJAY KUMAR

Wg Cdr

IDPO-3(D)





IC-40565N Lt Col Naumder Sharma, AOC, 12 Jun 2008  
 IC-40583W Lt Col PC Kaundal, Arty, 12 Jun 2008  
 IC-40594H Lt Col Kasinath De, Inf, 12 Jun 2008  
 IC-40598Y Lt Col KJ Pathak, Engrs, 12 Jun 2008  
 IC-40609A Lt Col MN Raiha, AOC, 12 Jun 2008  
 IC-40613H Lt Col GL Sharma, Inf, 12 Jun 2008  
 IC-40625X Lt Col KP Mishra, EME, 12 Jun 2008  
 IC-40631E Lt Col K Nayau, Inf, 12 Jun 2008  
 IC-40635T Lt Col Devinder Singh, Arty, 12 Jun 2008

AJAY GOEL  
 Dy Dir  
 MS SA

(ARMY BRANCH)

No. 540, dated 22nd October 2008. The President is pleased to make the following promotions (PC) under AJ 3778 as amended:—

REGULAR ARMY  
 ARMY DENTAL CORPS  
 (PERMANENT COMMISSION)

Lt Col to be Gp Capt

DR-104161. (28905) HS Darekar, 22nd Apr 2008

DR-10468P Prasanna Kumar MP, 05-05-2008

(with National Seniority wef 20-05-2006 without effect on pay & allowances)

The President is pleased to make the following promotion under AJ 1579, as amended:

REGULAR ARMY  
 ARMY DENTAL CORPS  
 SHORT SERVICE COMMISSION

Capt to be Quasi Substantive Major

DS-12102H (Ms) Mahalaxmi HS, 01 Nov 2007

DK TANEJA  
 Maj Gen  
 Addl DGDS

No. 541, dated 22nd October 2008. The President is pleased to make the following promotions:

REGULAR ARMY  
 PERMANENT COMMISSION

Maj to be Lt Col

IC No., Name, Arms, Effective date

IC-45024 Varinder Singh, Inf, 16 Dec 2004

IC-54877 Dinesh Sharma, AC, 04th Nov 2006

IC-53166 Kulwinder Singh, EME, 10 Dec 2007

IC-53169 Ashish Khanwalkar, Arty, 10 Dec 2007

Capt to be Major

IC No., Name, Arm, Subs Maj Wef

IC-56303 Jiban Chandra Koch, Arty, 06 Nov 2006

IC-56304 Sudhir Kumar Singh, Inf, 06 Nov 2006

IC-56306 Rohit Sharma, Arty, 06 Nov 2006

IC-56307 Randeep Singh, Inf, 06 Nov 2006

IC-56310 Yogesh Swaroop, ASC, 06 Nov 2006

IC-60333 Om Pal Singh, AC, 09 Dec 2006

IC-60483 Ashish Chauhan, EME, 09 Dec 2006

IC-60650 B Chakrabarti, Inf, 09 Jun 2008

IC-61387 K Siddhartha Narayan, Engrs, 08 Mar 2008

IC-61654 Amol Shantaram Awate, Mech Inf, 08 Jun 2008

IC-65173 Manish Gupta, AC, 03 Nov 2007

IC-65261 Surender Singh Rao, ASC, 03 Nov 2007

IC-65419 Devender Chahal, Int, 01 May 2008

IC-65423 Sanjay Das Gupta, Inf, 01 May 2008

IC-65435 Charanjit Yadav, ASC, 01 May 2008

Lt to be Capt

IC No., Name, Arm

IC-67584 Satyadeep Dhanda, Engrs

IC-67896 Parikshit Sharma, Inf

IC-67897 Bipin, Inf

IC-67898 S D Ashuk, Inf

IC-67902 Samir Talwar, Inf

IC-67919 Rajeev Dwivedi, Inf

IC-67936 Harshdeep K Gehlot, Inf

IC-67951 Avinash Singh, Inf

IC-67973 Kuldeep Kumar Dabral, Inf

IC-67975 Abhishek Kumar, Inf

IC-67989 Sushil Kumar, Inf

IC-67998 Mridul Teona, EME

IC-67999 Renukraj Nesur, AOC

IC-68004 Pralish Gantayat, Engrs

IC-68005 Ashish Saurabh Sharma, Inf

IC-68012 Robin Mathew, AC

IC-68042 Anupam Kaushik, Inf

IC-68049 Yogendra Bharat Jadhav, Int

IC-68333 Aslam Karim, EME	
IC-68334 Varun Kumar, Engrs	
IC-68342 Tejpal Singh Sodhi, Sigs	
IC-68345 Shyam Mohan Kadam, Engrs	
IC-68346 Karan Kumar, EME	
IC-68351 Bhavjit Mudgal, Engrs	
IC-68353 Sh. Jesh Kumar, Engrs	
IC-68354 Ashish Kumar Chowdhury, Sigs	
IC-68355 Mohit Gadhira, Sigs	
IC-68357 Hans Raj Singh, Sigs	
IC-68358 Kanchika Choudhary, Engrs	
IC-68361 Arjun Varipatru, Mech. Engrs	
IC-68362 Siddhanta Sharma, EME	
IC-68365 Anurag Choudhury, EME	
IC-68366 Deepak Kumar Singh, Sigs	
IC-68370 Anshuman Akram, Sigs	
IC-68371 Shiva Prasad Banerjee, Engrs	
	(0 Jun 2008)

## SHORT SERVICE COMMISSION (MEN)

## To be Capt

SS No., Name, Branch, Course, Date of Commission, Date of Seniority, Revised date of Seniority for Promotion, Date of Promotion for Substantive Capt

SS-42378 Brigadier Mohan Patil, EME, SSC-26(1), 17 Mar 2007, 20 Mar 2008, 20 Apr 2008, 20 Apr 2007

SS-42379 Satish Mishra, VAD, SSC-26(1), 17 Mar 2007, 20 Mar 2008, 20 Apr 2008, 20 Apr 2007

SS-42385 Vijay Mohan Indan Vajapuri, EME, SSC-26(1), 17 Mar 2007, 20 Mar 2008, 20 Apr 2008, 20 Apr 2007

SS-42386 Mahendra Kumar, EME, SSC-26(1), 17 Mar 2007, 20 Mar 2008, 20 Apr 2008, 20 Apr 2007

SS-42388 Prateep Javanmull, EME, SSC-26(1), 17 Mar 2007, 20 Mar 2008, 20 Apr 2008, 20 Apr 2007

SS-42394 Engineer Ramesh Pandik, Engrs, SSC-26(1), 17 Mar 2007, 20 Mar 2008, 20 Apr 2008, 20 Apr 2007

SS-42397 Sub. Engr. Karan Singh, EME, SSC-26(1), 17 Mar 2007, 20 Mar 2008, 20 Apr 2008, 20 Apr 2007

SS-42407 Sub. Engr. Satish Sigs, SSC-26(1), 17 Mar 2007, 20 Mar 2008, 20 Apr 2008, 20 Apr 2007

SS-42408 Joseph John Pannuomul, Engrs, SSC-26(1), 17 Mar 2007, 20 Mar 2008, 20 Apr 2008, 20 Apr 2007

SS-42409 Anurag R, EME, SSC-26(1), 17 Mar 2007, 20 Mar 2008, 20 Apr 2008, 20 Apr 2007

JASWANT SINGH

Jr Dir

MS-SC

## (ARMY BRANCH)

No. 542, dated 23rd October 2008—The President is pleased to make the promotion of the undermentioned AMC officers with effect from the date mentioned against each :

REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION

## Capt to be Major

Vijay Kumar Sharma, (MR-07563M), AMC, 05 Feb 2006

Ablushek Kumar Shukla, (MR-07856N), AMC, 04 Jan 2008

Dileera Kumar, (MR-07892Y), AMC, 04 Jan 2008

Vinod Kumar, (MR-08620L), AMC, 27 Jan 2008

Kumar Sanjay Nirala (MR-07921H), AMC, 22 Feb 2008

Debashish Paul (MR-08621N), AMC, 04 Jun 2008

G. RAVINDRANATH

Maj Gen

Addl DG AFMS (Hr)

No. 543, dated 23rd October 2008—The President is pleased to make the following promotions :

REGULAR ARMY  
REGIMENT OF ARTILLERY

## To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Sohan Singh (JC-2579521H), 03 Mar 2008/01 Jan 2008\*

Sub AN Singh (JC-258275X), 08 Mar 2008/01 Mar 2008\*

Sub Surindra Singh (JC-261425Y), 13 Jun 2008/01 Jun 2008\*

## To be Substantive Subedar Major (AIG)

Sub Manjit Singh (JC-2594131L), 10 Jul 2008/01 Jul 2008\*

## To be Substantive Subedar (AIG)

Nb Sub Prem Singh (JC-263666X), 01 Apr 2006/01 Mar 2006\*

Nb Sub Joginder Singh (JC-264442K), 01 Jan 2007

Nb Sub Mohan Lal (JC-266895N), 01 May 2008

Nb Laxman Singh (JC-265577M), 01 Jul 2008

Nb Sub Salunkhe Raja Ram Hanamant (JC-267889M), 01 Aug 2008

Nb Sub Rajeevan D (JC-267989X), 01 Aug 2008

\*(Gtd Seniority wef)

## To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Shinde Balasaheb Pandurang (JC-268373W), 05 Mar 2008/01 Mar 2008\*

Nb Sub Narender Singh Yadav (JC-267365L), 19 Mar 2008/01 Mar 2008\*

Nb Sub Madan Lal Sharma (JC-266781H), 09 Jul 2008/01 Jan 2008\*

Nb Sub Partap Singh (JC-268675H), 19 May 2008/01 Apr 2008\*

Nb Sub Jadhav Arvind Balakrishna (JC-268140P), 27 May 2008/01 May 2008\*

Nb Sub Amrik Singh (JC-267716P), 01 May 2008

Nb Sub Kanerkar Rajaram Tukaram (JC-267577W), 10 May 2008/01 Feb 2008\*

Nb Sub Balwant Singh (JC-269083L), 28 Mar 2008/01 Mar 2008\*

Nb Sub Sita Ram (JC-266582P), 03 Mar 2008/09 Dec 2007\*

Nb Sub Satnam Singh (JC-267162F), 27 May 2008/01 Jan 2008\*

Nb Sub Kuldip Singh (JC-266497M), 21 Nov 2007/01 Aug 2007\*

Nb Sub Nachhater Singh (JC-267805N), 01 Apr 2008

Nb Sub Suresh Prasad Dubey (JC-266991H), 02 May 2008/01 Jan 2008\*

Nb Sub Hari Singh (JC-266932W), 27 May 2008/01 Mar 2008\*

Nb Sub Lakhvinder Singh (JC-267974P), 30 Apr 2008/08 Feb 2008\*

Nb Sub Umashanker (JC-267239Y), 27 May 2008/01 Apr 2008\*

\*(Gtd Seniority wef)

Nb Sub Lakhon Singh (JC-2684351L), 18 Jun 2008/01 Jun 2008\*

Nb Sub Samay Singh Gurjar (JC-267210W), 01 Jun 2008

Nb Sub Gaya Prasad (JC-267273Y), 09 Jul 2008/01 Jun 2008\*

Nb Sub Jai Prakash Chaube (JC-267393X), 01 Jun 2008

Nb Sub Kishore Kumar Sharma (JC-268752M), 01 Jun 2008

Nb Sub Puaran Chand (JC-268059H), 01 Jun 2008

Nb Sub Baskaran G (JC-268415X), 01 Jun 2008

Nb Sub Gopala Krishna Pillai KB (JC-268678W), 23 Jun 2008/01 Jun 2008\*



Hav Guptheswar Yadav (No. 14493340W now JC-272007K), 02 Jun 2008/01 Jun 2008\*

Hav Ramesh Yadav (No. 14401391M now JC-272008M), 01 Jul 2008

\*(Gtd Seniority wef)

Hav Nand Lal (No. 14365654M now JC-271898L), 27 Apr 2008/01 Aug 2007\*

Hav Lal TP (No. 15109914M now JC-271899N), 29 Feb 2008/01 Dec 2007\*

Hav Rajender Paul (No. 14498961Y now JC-271900X), 25 Jun 2008/01 Jan 2008\*

Hav Baiwant Singh (No. 15100460H now JC-271901A), 07 May 2008/01 Jan 2008\*

Hav Surinder Kumar (No. 14372582W now JC-271902H), 24 Apr 2008/01 Jan 2008\*

Hav Parashu Ram (No. 15103267F now JC-271903J), 22 Jan 2008/01 Jan 2008\*

Hav Rajvinder Singh (No. 14380812N now JC-271904N), 22 Apr 2008/01 Feb 2008\*

BHM C Harun Saheb (No. 14479983H now JC-271905W), 16 Jun 2008/01 Feb 2008\*

Hav Kundan Singh (No. 15133234L now JC-271906Y), 01 May 2008/25 Mar 2008\*

Hav Gurtej Singh (No. 14493026H now JC-271907F), 01 Apr 2008

Hav Unrao Singh (No. 14459053P now JC-271908K), 14 Jun 2008/01 Apr 2008\*

Hav Karlash Chander (No. 14478711W now JC-271909M), 10 Jun 2008/01 Apr 2008\*

Hav A Kamaraj (No. 14490041M now JC-271910F), 07 May 2008/25 Apr 2008\*

Hav Baiwant Singh (No. 14485889P now JC-271911K), 01 Jun 2008

Hav Surender Kumar (No. 15110490N now JC-271912M), 27 Jun 2008/11 Jun 2008\*

Hav Krishan Kumar (No. 14489654A now JC-271913P), 27 Jun 2008/24 Jun 2008\*

Hav Narendra Singh (No. 15111507H now JC-271914X), 19 Dec 2007/01 Nov 2007\*

Hav Sanjay Sakrati (No. 15122892X now JC-271915A), 21 Feb 2008/20 Nov 2007\*

Hav J. Sathyanathan (No. 14388099W now JC-271916H), 11 Mar 2008/30 Nov 2007\*

RHM E Ponnu Raj (No. 143387896P now JC-271917L), 03 May 2008/01 Jan 2008\*

RHM Vinod Kumar (No. 14391245W now JC-271918N), 28 Apr 2008/21 Mar 2008\*

Hav Darshan Singh (No. 14390613N now JC-271919W), 17 Jun 2008/01 Apr 2008\*

Hav Yuraj Raghunath Londe (No. 15106746N now JC-271920J), 09 Apr 2008/01 Apr 2008\*

Hav Meshram Meghraj Laxman (No. 14405289F now JC-271921N), 01 Jul 2008/27 Apr 2008\*

Hav Byale Digambar Ramchandra (No. 14383922N now JC-271922W), 27 May 2008/01 May 2008\*

Hav Raj Pal (No. 13885908M now JC-271923Y), 15 Jun 2008/25 May 2008\*

BHM Vikram Dutt (No. 14391950P now JC-271924F), 09 Jun 2008/01 Jun 2008\*

Hav Sandimani Dendappa (No. 14479211L now JC-271925K), 25 Jun 2008/01 Jun 2008\*

Hav Harmesh Singh (No. 14385556N now JC-271926M), 23 Jun 2008/01 Jun 2008\*

Hav Lekkala Ramana (No. 15110306X now JC-271927P), 26 Jun 2008/01 Jun 2008\*

Hav Kulvinder Kumar Bali (No. 15102887L now JC-271928X), 13 Jun 2008/01 Jun 2008\*

Hav Daulat Singh Thakur (No. 15112244F now JC-271929A), 26 Jun 2008/01 Jun 2008\*

\*(Gtd Seniority wef)

Hav Soundara Rajan P (No. 14389806F now JC-271930P), 08 Apr 2008/21 Jun 2007\*

BHM More Rajesh Lallu (No. 14396957H now JC-271931X), 05 Jan 2008/04 Aug 2007\*

Hav Meenuga Lakshmi Reddy (No. 14391002L now JC-271932A), 09 May 2008/20 Nov 2007\*

Hav Naghbhushana Char VD (No. 14492888P now JC-271933H), 04 Feb 2008/01 Dec 2007\*

Hav Ilango N (No. 14371471M now JC-271934L), 04 Feb 2008/15 Dec 2007\*

Hav Hukam Chand Sharma (No. 14380742A now JC-271935N), 29 Jan 2008/07 Jan 2008\*

Hav Ramachandran (No. 14386204H now JC-271936W), 23 Jun 2008/01 Feb 2008\*

Hav Pappala Srinivasa Rao (No. 14370860A now JC-271937Y), 23 Jun 2008/01 Feb 2008\*

BHM M Arunachala Pikumal (No. 14380784M now JC-271938F), 18 Mar 2008/01 Mar 2008\*

Hav Biwanda Kumar Mandal (No. 14488013F now JC-271939K), 22 Jun 2008/01 Apr 2008\*

Hay Preeti Pandurang Barman (No. 1438827) now JC-271597E, 01 Apr. 2008.

Hay Sanjiv Kumar Prasad (No. 151117) now JC-271594E, 01 May 2008 & 01 Apr. 2008.

Hay Vinod Kumar Singh (No. 14403296) now JC-271594K, 01 May 2008 & 01 May 2008.

Hay Rajendra Singh (No. 14778714P) now JC-271594M, 01 May 2008 & 01 Jan. 2008.

Hay Ramesh Kumar (No. 15199096M) now JC-271594P, 01 Jan. 2008 & 01 Jan. 2008.

BHM Shyam Singh (No. 14307994) now JC-271594N, 01 Jan. 2008 & 01 Jan. 2008.

Hay Raj Kumar Tewari (No. 14486926M) now JC-271594N, 01 Jan. 2008 & 01 Dec. 2007.

Hay Kamaldeep Prasad Singh (No. 14779770) now JC-271594H, 01 May 2008 & 01 Jan. 2008.

Hay Chandra Bhawan Sankar (No. 14398112K) now JC-271594L, 01 Jan. 2008 & 01 Feb. 2008.

BHM Laxmi Kanta Singh (No. 14677200P) now JC-271594H, 01 Jan. 2008 & 01 Feb. 2008.

BHM Anil Kumar (No. 14389936W) now JC-271594H, 01 Feb. 2008 & 01 Jan. 2008.

Hay Ramesh Kumar Chaturvedi (No. 14696960) now JC-271594L, 01 Jan. 2008 & 01 Feb. 2008.

Hay Kamal Prasad Yadav (No. 14498460) now JC-271592N, 01 Mar. 2008 & 01 Mar. 2008.

Hay Rajendra Kumar (No. 14379607N) now JC-271594L, 01 Apr. 2008 & 01 May 2008.

Hay Shyam Lal (No. 1510766Y) now JC-271594Y, 01 Apr. 2008.

BHM Jitendra Kumar (No. 14481534N) now JC-271594L, 01 Apr. 2008.

Hay Rakesh Kumar (No. 14389706) now JC-271594K, 01 Apr. 2008 & 01 Apr. 2008.

Hay Vinod Kumar (No. 14488945N) now JC-271597M, 01 Jan. 2008 & 01 Apr. 2008.

Hay Preeti Suman Shrivastava (No. 14398577) now JC-271594P, 01 Apr. 2008 & 01 May 2008.

BHM Vinod Kumar Prasad (No. 15106970P) now JC-271594N, 01 Jan. 2008.

BHM Ramesh Kumar Mishra (No. 14389637N) now JC-271594M, 01 Jan. 2008.

Hay Anil Kumar (No. 15107253Y) now JC-271594P, 01 Jul. 2008 & 01 Jan. 2008.

\*Ord. Section 1, 1925

to be Naib Subedar (Clerk GD & Skt)

Hay (Clerk) Madhukumar Nair (No. 14382597Y) now JC-271594A, 01 Apr. 2008 & 01 Jan. 2008.

Hay (Clerk) Devesh Prabhaj Kumar (No. 14387039P) now JC-271597E, 01 Apr. 2008.

Hay (Clerk) Sambhaji Nath Singh (No. 15103623W) now JC-271598K, 01 May 2008.

Hay (Clerk) Prasad Kumar Anubrahm (No. 15103628P) now JC-271599M, 01 May 2008.

Hay (Clerk) Nityajit Sahasr (No. 14389326X) now JC-271600W, 01 May 2008.

Hay (Clerk) Ramakrishna Jena (No. 14389329J) now JC-271601Y, 02 Jan. 2008 & 01 Jan. 2008.

Hay (Clerk) Vipul Kumar Singh (No. 15103669Y) now JC-271598H, 01 Jan. 2008.

Hay (Clerk) Siddhartha Samal (No. 15103672Y) now JC-271602F, 02 Jan. 2008 & 01 Jan. 2008.

Hay (Clerk) Bhagwan Singh (No. 14389389A) now JC-271590L, 02 Jan. 2008 & 01 Jan. 2008.

Hay (Clerk) Balraj Nath (No. 15103742X) now JC-271603K, 02 Jan. 2008 & 01 Jan. 2008.

Hay (Clerk) Harvinder Singh (No. 14389431N) now JC-271597N, 01 Jan. 2008.

\*Ord. Section 1, in the rank of Sr. Sub. without effect on pay & allowances

Hay (Clerk) Rakesh (No. 15103703N) now JC-271604M, 02 Jan. 2008 & 01 Jan. 2008.

Hay (Clerk) Manoj Kumar (No. 15103714A) now JC-271605P, 02 Jan. 2008 & 01 Jan. 2008.

Hay (Clerk) Kuntal Kumar (No. 14389256L) now JC-271598W, 28 Jan. 2008 & 01 Jan. 2008.

Hay (Skt) Om Prakash (No. 14389044N) now JC-271599Y, 01 Jan. 2008.

Hay (Skt) Karan Choudhary (No. 14389037X) now JC-271590N, 01 Jan. 2008.

Hay (Skt) Jaswant Singh (No. 14389038A) now JC-271591N, 01 Jan. 2008.

Hay (Clerk) Rajendra (No. 14389562Y) now JC-271597Y, 01 Jan. 2008.

Hay (Clerk) Shantanu Nayak (No. 14389630F) now JC-271597P, 01 Jan. 2008.

Hay (Clerk) Parshu Ram (No. 15103669A) now JC-2715973K, 01 Jan. 2008.

Hay (Clerk) Satish Kumar Singh (No. 15103663N) now JC-2715974M, 01 Jan. 2008.

Hay (Clerk) Dharmendra Singh (No. 14383427P) now JC-271592Y, 01 Jan. 2008.

Hav (Cik) Chandra Bhan Yadav (No. 14389651X now JC-271975P), 01 Jul 2008

Hav (Cik) Daya Shanker Pandey (No. 143896531I now JC-271976X), 01 Jul 2008

Hav (Cik) Jitmal Singh (No. 14389694M now JC-271977A), 01 Jul 2008

Hav (Cik) Amarjeet Singh (No. 14389711F now JC-271978H), 01 Jul 2008

Hav (Cik) Gokul Chand (No. 14389739F now JC-271979L), 01 Jul 2008

Hav (Cik) Chandia Sekar MR (No. 14389785W now JC-271980A), 01 Jul 2008

Hav (Cik) Dabdutt Sharma (No. 14389841K now JC-271981H), 01 Jul 2008

\* (Gid seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay & allies)

Hav (Cik) Suresh Chandra Chaurasia (No. 15104177M now JC-271982L), 01 Jul 2008

Hav (Cik) R Devarajulu Reddy (No. 14390406I now JC-271983N), 01 Jul 2008

Hav (Cik) Subhash Chahal (No. 15104270N now JC-271984W), 01 Jul 2008

Hav (Cik) Lonkar Sunil Maruti (No. 15104271W now JC-271985Y), 01 Jul 2008

Hav (Skt) Veni Gopala Kurup (No. 14386949M now JC-271986F), 01 Jul 2008

Hav (Skt) Rajendra (No. 15101999Y now JC-271987K), 01 Jul 2008

Hav (Skt) Jagdish Raj (No. 15102001H now JC-271988M), 01 Jul 2008

(Gid seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay & allies)

#### Corps of Signals

To be Substantive Subedar Major (P of S)

Sub Balbir Singh (JC-367123X), 01 Feb 2008

To be Substantive Subedar Major (OP Ciph)

Sub Samir Kumar Dey (JC-368924L), 01 Feb 2008

To be Substantive Subedar Major (OP Spec)

Sub Pooran Chandra Joshi (JC-368334M), 01 Feb 2008

Sub Shashi Kant Singh (JC-368669K), 01 Feb 2008

To be Substantive Subedar Major (Cik GD)

Sub Bibal Singh (JC-369777A), 01 Feb 2008

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Chandra Prakash (JC-370935W), 01 Dec 2007

Sub Sudhan Paj Yadav (JC-370936Y), 01 Jan 2008

Sub Shaijan Singh Rathore (JC-370852L), 01 Feb 2008

Sub Subh Karan (JC-371010M), 01 Feb 2008

Sub Nand Lal (JC-371013A), 01 Feb 2008

Sub Bijender Singh (JC-371020W), 01 Feb 2008

ARMY SERVICE CORPS (ANIMAL TRANSPORT)

The President is pleased to make the following promotions:—

To be Substantive Naib Risaldar (ASH)

Dafadar Bal Bahadur Thapa (No. 6376540W Now JC-681058M), 22 Feb 2008/01 Jan 2008\*

Dafadar Birender Singh (No. 6472778M Now JC-681059P, 20 Feb 2008/01 Jan 2008\*

Dafadar Bhuleswar Barik (No. 6472363A Now JC-681060X), 12 Feb 2008/01 Feb 2008\*

Dafadar Shingura Singh (No. 6472950K Now JC-681061M), 08 Feb 2008/01 Feb 2008\*

Dafadar Rameshwar Pandey (No. 6379803P Now JC-681062P), 18 Feb 2008/01 Feb 2008\*

Dafadar Ashok Kumar MP (No. 6472853M Now JC-681063X), 107 Feb 2008/01 Feb 2008\*

Dafadar Ganesh Choudhary (No. 6472961W Now JC-681064A), 15 May 2008/01 Feb 2008\*

Dafadar Yashwant Singh (No. 6476345N Now JC-681065H), 16 May 2008/01 Feb 2008\*

Dafadar Lallu Singh (No. 6476396P Now JC-681066L), 16 May 2008/01 Mar 2008\*

Dafadar A Subramaniam (No. 6476398M Now JC-681067N), 31 May 2008/01 Apr 2008\*

Dafadar NM Chatterjee (No. 6476402K Now JC-681069Y), 05 Jun 2008/01 May 2008\*

Dafadar CM Gogoi (No. 6476359M Now JC-681072L), 03 Jun 2008/01 Jun 2008\*

Dafadar Venkat (No. 6476365F Now JC-681073H), 04 Jun 2008/01 Jun 2008\*

Dafadar S K Sharma (No. 6476383K Now JC-681075M), 01 Jun 2008\*

Dafadar Mahinder Singh (No. 6476322M Now JC-681076P), 07 Jun 2008/01 Jun 2008\*

\* (Gid ante-date seniority without effect on pay and allies wof)

P. RAMA SASTRY  
Under Secy.

#### ARMY BRANCH

No. 544, dated 24 October 2008—The President is pleased to make the following promotions:—

**REGULAR ARMY**  
**ARMY ORDINANCE LISTS**

**to be Nb Sub**

Has (A) Manish Kumar Upadhyay (No. 692576N now JC-727988P) as May 2008.

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Has (A) J. J. Singh Chakraborty (No. 692677J now JC-727989N) as May 2008.

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Has (A) Pradyumn Kumar Pandey (No. 692856N now JC-727990M) as Jul 2008.

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Has (A) Jayantika Kumar Yadav (No. 692857J now JC-727991M) as Jul 2008.

Has (A) Chhannu Kumar A (No. 692858N now JC-727992K) as Jul 2008.

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Has (A) Singh Mahendra (No. 692968N now JC-727993A) as Jul 2008.

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Has (A) Bhaskar Kumar Vishwakarma (No. 692969N now JC-727994B) as Jul 2008.

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Has (A) Gopendra Singh (No. 692975P now JC-727995J) as Jul 2008.

Has (A) P. K. Singh (No. 692974P now JC-727996K) as Jul 2008.

Has (A) Subir Kumar K (No. 693082Y now JC-728007W) as Aug 2008.

Has (A) J. J. Narayan Kaper (No. 692987X now JC-727998Y) as Jul 2008.

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Has (A) S. S. Doshi Raj (No. 692990M now JC-727999F) as Jun 2008.

Has (A) S. S. Suman Singh (No. 692991N now JC-728000H) as Jul 2008.

Has (A) S. S. Prabhakar Dayal (No. 692992N now JC-728001J) as Jun 2008.

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Jul

Has (A) S. S. Suman Singh (No. 6922575W now JC-728002N) as Jul 2008.

Has (A) S. S. Ram Mohan Trivedi (No. 6922577T now JC-728003W) as Jul 2008.

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Has (A) S. S. Chaitan Singh (No. 6922580J now JC-728004Y) as Jul 2008.

Has (A) S. S. Rajkumar (No. 6922597P now JC-728005F) as Jul 2008.

Has (A) S. S. Balbir Singh (No. 6922601M now JC-728006K) as Jul 2008.

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Has (A) S. S. Gangadhar Rao (No. 692267J now JC-728007M) as Jul 2008.

Has (A) S. S. Ram Prasad Singh (No. 6922672N now JC-728008P) as Jul 2008.

Has (A) S. S. Nandhar Singh (No. 6922682X now JC-728009N) as Jul 2008.

Has (A) S. S. Mani Kumar Singh (No. 6922683A now JC-728010M) as Jul 2008.

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Has (A) S. S. Rakesh Chandra (No. 6922687W now JC-728011P) as Jul 2008.

Has (A) S. S. Ravi Raga Kumar (No. 6930356K now JC-728012X) as Jul 2008.

Has (A) S. S. Ramesh Naik Singh (No. 6922099K now JC-728012X) as Jul 2008.

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay and allowances)

Has (A) S. S. Joseph (No. 6922135W now JC-728014H) as Jul 2008.

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 May 2008 without effect on pay and allowances)

Has (A) S. S. Nan Singh (No. 6922169W now JC-728015L) as Jul 2008.

Has (A) S. S. Wajid Ali Durr (No. 6922246Y now JC-728016N) as Jun 2008.

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Has (A) S. S. Sanjay Chand (No. 6922241I now JC-728017W) as Jul 2008.

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Jun



Hav (Skt GS&C) Lal Chand (No. 6922242K now JC-728018Y), 03 Jul 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (Skt GS&C) Raghubir Singh (No. 6922244P now JC-728019F), 01 Jun 2008

Hav (Skt Wep) Sheyo Raj Singh Rawat (No. 6922246A now JC-728020W), 24 Jul 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (Skt Wep) Ram Karan (No. 6922248I, now JC-728021Y), 01 Jun 2008

Hav (Skt Wep) Arun Kumar (No. 6922263A now JC-728022F), 14 Jun 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (Skt Wep) Kupal Singh (No. 6922266N now JC-728023K), 16 Jul 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (Skt Wep) Dharam Pal (No. 6922274M now JC-728024M), 10 Jul 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (Skt Wep) Shashi Paul Singh (No. 6922286T now JC-728025P), 08 Jul 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (Skt Sig) Suba Singh (No. 6922294A now JC-728026X), 12 Jul 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (Skt Sig) Dhann Vir Singh (No. 6922296I, now JC-728027A), 04 Jul 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (Skt GS&C) Kali Charan (No. 6922301L now JC-728028H), 01 Jul 2008

Hav (Skt Sig) Gann Chand (No. 6922303W now JC-728029I), 31 Jul 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (Skt Sig) Rajbir Singh (No. 6922304Y now JC-728030A), 16 Jul 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Jul 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (Skt Sig) Kali Charan (No. 6922305F now JC-728031H), 01 Aug 2008

Hav (Skt Sig) Ranjit Yadav (No. 6922322F now JC-728032I), 01 Jul 2008

Hav (Skt Sig) Roshan Lal (No. 6922324M now JC-728033N), 01 Jul 2008

Hav (DVR MT) Phool Singh (No. 6921194H now JC-728034W), 01 Aug 2008

Hav (DVR MT) Raja Sekaran N (No. 6921399X now JC-728035Y), 01 Aug 2008

Hav (SHI) Dharam Narayan Pandey (No. 6920096W now JC-728036P), 01 Jul 2008

Hav (SHI) Gurnam Singh (No. 3382825W now JC-728037K), 01 Jul 2008

Hav (SHGD) Lal Babu Singh (No. 6920181Y now JC-728038M), 01 Aug 2008

Hav (SHGD) K Bala Subramaniam (No. 6921947K now JC-728039P), 01 Aug 2008

Hav (PIR(U)) Shiv Kumar Das (No. 13956566W now JC-728040K), 01 Jul 2008

Hav (OI.P) Murari Lal (No. 6920981X now JC-728041M), 01 Jun 2008

NK KASHMIRA  
Under Secy.

#### AIR HEADQUARTERS

No. 545, dated 24th October 2008.—The President is pleased to promote undermentioned Personal Assistants of AFHQ Stenographers' Service as Private Secretary on temporary basis (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 6500—10,500/- with effect from 05 Mar 2008 to 30 Jun 2008 or till persons from select list become available or till the individual retires, whichever is earlier:—

S. Shri/Smu  
Raju  
Gopi Kant Ray  
Ranjit Kumar Raik  
Madhubala  
Subhash Chand  
Promila Kumari Mahaur

$\gamma \leq \beta \leq \gamma$ 

SINGH AND GUPTA

Nathan Aschbach

### Discussion

### Answer: Not given

## References

### Modeling

### Discussion

Bilal Ali Syed

2. The appointment shall be subject to the following conditions:

60. The applicant has clearly indicated that it has no other interests in the land, and that the land is not being used for any other purpose.

(b) The officers shall have no claim for reimbursement on the basis of temporary placement or unpaid leave. The wages of such officers shall not count towards seniority in the rank of PS.

511X:3.00, 512.011

Dr. C. H. L. VAN DER PLIGT, *Director*

# LINEAR, QUASILINEAR AND PDE FORMING ORGANISATIONS

No. 7-60, dated 14th October 2008, has been sent as enclosed letter with following promotion:

The following variables are used in the regression model: R&D, which is defined as the ratio of R&D to sales; SIZE, which is defined as the natural logarithm of sales; and LEV, which is defined as the ratio of debt to capitalization. The dependent variable is defined as the ratio of cash flow to sales.

Skinner, 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014; 2015; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031; 2032; 2033; 2034; 2035; 2036; 2037; 2038; 2039; 2040; 2041; 2042; 2043; 2044; 2045; 2046; 2047; 2048; 2049; 2050; 2051; 2052; 2053; 2054; 2055; 2056; 2057; 2058; 2059; 2060; 2061; 2062; 2063; 2064; 2065; 2066; 2067; 2068; 2069; 2070; 2071; 2072; 2073; 2074; 2075; 2076; 2077; 2078; 2079; 2080; 2081; 2082; 2083; 2084; 2085; 2086; 2087; 2088; 2089; 2090; 2091; 2092; 2093; 2094; 2095; 2096; 2097; 2098; 2099; 2100; 2101; 2102; 2103; 2104; 2105; 2106; 2107; 2108; 2109; 2110; 2111; 2112; 2113; 2114; 2115; 2116; 2117; 2118; 2119; 2120; 2121; 2122; 2123; 2124; 2125; 2126; 2127; 2128; 2129; 2130; 2131; 2132; 2133; 2134; 2135; 2136; 2137; 2138; 2139; 2140; 2141; 2142; 2143; 2144; 2145; 2146; 2147; 2148; 2149; 2150; 2151; 2152; 2153; 2154; 2155; 2156; 2157; 2158; 2159; 2160; 2161; 2162; 2163; 2164; 2165; 2166; 2167; 2168; 2169; 2170; 2171; 2172; 2173; 2174; 2175; 2176; 2177; 2178; 2179; 2180; 2181; 2182; 2183; 2184; 2185; 2186; 2187; 2188; 2189; 2190; 2191; 2192; 2193; 2194; 2195; 2196; 2197; 2198; 2199; 2200; 2201; 2202; 2203; 2204; 2205; 2206; 2207; 2208; 2209; 2210; 2211; 2212; 2213; 2214; 2215; 2216; 2217; 2218; 2219; 2220; 2221; 2222; 2223; 2224; 2225; 2226; 2227; 2228; 2229; 2230; 2231; 2232; 2233; 2234; 2235; 2236; 2237; 2238; 2239; 2240; 2241; 2242; 2243; 2244; 2245; 2246; 2247; 2248; 2249; 2250; 2251; 2252; 2253; 2254; 2255; 2256; 2257; 2258; 2259; 2260; 2261; 2262; 2263; 2264; 2265; 2266; 2267; 2268; 2269; 2270; 2271; 2272; 2273; 2274; 2275; 2276; 2277; 2278; 2279; 2280; 2281; 2282; 2283; 2284; 2285; 2286; 2287; 2288; 2289; 2290; 2291; 2292; 2293; 2294; 2295; 2296; 2297; 2298; 2299; 2300; 2301; 2302; 2303; 2304; 2305; 2306; 2307; 2308; 2309; 2310; 2311; 2312; 2313; 2314; 2315; 2316; 2317; 2318; 2319; 2320; 2321; 2322; 2323; 2324; 2325; 2326; 2327; 2328; 2329; 2330; 2331; 2332; 2333; 2334; 2335; 2336; 2337; 2338; 2339; 2340; 2341; 2342; 2343; 2344; 2345; 2346; 2347; 2348; 2349; 2350; 2351; 2352; 2353; 2354; 2355; 2356; 2357; 2358; 2359; 2360; 2361; 2362; 2363; 2364; 2365; 2366; 2367; 2368; 2369; 2370; 2371; 2372; 2373; 2374; 2375; 2376; 2377; 2378; 2379; 2380; 2381; 2382; 2383; 2384; 2385; 2386; 2387; 2388; 2389; 2390; 2391; 2392; 2393; 2394; 2395; 2396; 2397; 2398; 2399; 2400; 2401; 2402; 2403; 2404; 2405; 2406; 2407; 2408; 2409; 2410; 2411; 2412; 2413; 2414; 2415; 2416; 2417; 2418; 2419; 2420; 2421; 2422; 2423; 2424; 2425; 2426; 2427; 2428; 2429; 2430; 2431; 2432; 2433; 2434; 2435; 2436; 2437; 2438; 2439; 2440; 2441; 2442; 2443; 2444; 2445; 2446; 2447; 2448; 2449; 2450; 2451; 2452; 2453; 2454; 2455; 2456; 2457; 2458; 2459; 2460; 2461; 2462; 2463; 2464; 2465; 2466; 2467; 2468; 2469; 2470; 2471; 2472; 2473; 2474; 2475; 2476; 2477; 2478; 2479; 2480; 2481; 2482; 2483; 2484; 2485; 2486; 2487; 2488; 2489; 2490; 2491; 2492; 2493; 2494; 2495; 2496; 2497; 2498; 2499; 2500; 2501; 2502; 2503; 2504; 2505; 2506; 2507; 2508; 2509; 2510; 2511; 2512; 2513; 2514; 2515; 2516; 2517; 2518; 2519; 2520; 2521; 2522; 2523; 2524; 2525; 2526; 2527; 2528; 2529; 2530; 2531; 2532; 2533; 2534; 2535; 2536; 2537; 2538; 2539; 2540; 2541; 2542; 2543; 2544; 2545; 2546; 2547; 2548; 2549; 2550; 2551; 2552; 2553; 2554; 2555; 2556; 2557; 2558; 2559; 2560; 2561; 2562; 2563; 2564; 2565; 2566; 2567; 2568; 2569; 2570; 2571; 2572; 2573; 2574; 2575; 2576; 2577; 2578; 2579; 2580; 2581; 2582; 2583; 2584; 2585; 2586; 2587; 2588; 2589; 2590; 2591; 2592; 2593; 2594; 2595; 2596; 2597; 2598; 2599; 2600; 2601; 2602; 2603; 2604; 2605; 2606; 2607; 2608; 2609; 2610; 2611; 2612; 2613; 2614; 2615; 2616; 2617; 2618; 2619; 2620; 2621; 2622; 2623; 2624; 2625; 2626; 2627; 2628; 2629; 2630; 2631; 2632; 2633; 2634; 2635; 2636; 2637; 2638; 2639; 2640; 2641; 2642; 2643; 2644; 2645; 2646; 2647; 2648; 2649; 2650; 2651; 2652; 2653; 2654; 2655; 2656; 2657; 2658; 2659; 2660; 2661; 2662; 2663; 2664; 2665; 2666; 2667; 2668; 2669; 2670; 2671; 2672; 2673; 2674; 2675; 2676; 2677;

$$\text{var}(\hat{\beta}_k) = \frac{1}{n} \text{tr}(\mathbf{A}_k \mathbf{A}_k^T) \text{tr}(\mathbf{A}_k^T \mathbf{A}_k) = \frac{1}{n} \text{tr}(\mathbf{A}_k^T \mathbf{A}_k \mathbf{A}_k \mathbf{A}_k^T) = \frac{1}{n} \text{tr}(\mathbf{A}_k^T \mathbf{A}_k^2 \mathbf{A}_k) = \frac{1}{n} \text{tr}(\mathbf{A}_k^3) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \lambda_i^3$$

The authors are pleased to thank G. G. Zil'ber for his assistance.

ShinAK Etkin, MIT URBANFORM and MIT CSAIL  
AD Etkin@MIT.edu, Etkin@urbanform.mit.edu  
Presented at the 2015 Annual Meeting of the  
Association for the Study of Consumer Behavior

1.  $\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}$ 

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/000000>; this version posted January 1, 2016. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

## VINYLBREXOL

No. 548, dated 20 October 2008. The President is pleased to permit the under-mentioned Officers to re-join the Army Service from their noted earlier than their normal age of retirement at their own request for their personal reasons and transfer them to Regular Reserve of Officers (Class A) under SAI 10 S 63 as amended.

REGULAR ARMY  
PROMOTION COMMISSION

IC No. Range Name YOM Ser. EDR date

$$[0.41(57) \text{ mol of Ba}^{2+}]/[\text{mol of Sr}^{2+}] = 1/1.07(35-0.51) \text{ mol of Sr}^{2+}$$

EC-491761 is a. Kulkarni and John Vergnese, A.C.,  
3044-95, NY.

10-422761, Fed. York. Sm. g. Dm. AC, 17-05-05, AN)

© 2024 A. K. Jaiswal, Singh Ravi, P. M. P. 96-05 ANI

$$k = 41^{+9.5}_{-10.5} \text{ (stat)}, \text{exp. (1.1)}, M = 0.2 \pm 0.5 \text{ (stat)}$$

**BK-Sil<sup>TM</sup>Q3** | [View our Ashish Dutt, SCS, 09-07-08 VNI](#)

© 2007 The Author  
Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd

 $[0.47(10)^5 \text{ M}_{\odot} \text{ yr}^{-1}] \text{ (Vignati et al. 1998, 2005, 2011)}$ 

10-45,58 (100%)  $\chi^2 = 0$ , P-Value = 1.00, Sign. (2-sided) = 1.00

[C-42697] M. M. Zaitsev, V. A. Sidorov, S. G. S. O'S. O'S. A. N.

[C-44966] (C) 1984 Shashi Sengul Chaudhary, Suzs,  
16-11-85(AN)

[illegible]

U.51746. P. Ch. Iyer Sundar Raj Mani, Sigs,  
1108 67th St.

0038733: Col NQ (Saturumankar, H.R.; 07-95) 335

WC-4127: 10 Oct. Ya-houan R40 Review, Inf.  
01-98405 ASU

U. 39354 L. U. G. S. 1999, Catalogue, Simon, Inf. 1999-05, AN.

IC-22052: Dr. G. Chander Singh Gaur, Ind.  
17-60-05(AN)

K-42577 (100% Nucleic Acid, 26-04-08) ANI

IC-38791: 1.00 (S); Setty Raja Gupta, SM, Ind,  
(63.00-05.88)

IC-45094 Lt Col Kulbhushan Bhardwaj, AOC,  
18-10-05(AN)

IC-53811 Maj Vantesh Bakshi, AOC, 19-12-05(AN)

SK CHAKRABORTY  
Jt Dir  
MS/PR

GS BRANCH  
CORRIGENDUM

No. 549, dated 27th October 2008—In the Government of India, Ministry of Defence, Notification No. 45 published in Gazette on 06 November 1999 under heading "Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies" sub heading "Change of Names" is hereby amended as under:

For : TA-42192 Lt Col Rakesh Kumar Brar

Read : TA-42192 Lt Col Rakesh Singh

JAI RAJ  
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 550, dated 27th October 2008—The President is pleased to make the following appointments:

REGULAR ARMY  
(SHORT SERVICE COMMISSION)

CORRIGENDUM

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published in the Gazette of India dated 21 Apr 2007 under heading "Short Service Commission" in the Regular Army is hereby amended as under:-

In the table of Para I

For WS-01178 M SONY DAHIYA AAD

Read WS-01178H SONY DAHIYA AAD

NILESH CHOWDHARY  
Major  
AMS 8B

ARMY BRANCH

CORRIGENDUM

No. 551, dated 27th October 2008—In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification No. 312 published on 25 Jun 2005 under the heading "Regular Army, Permanent Commission", and sub heading "Capt to be Maj" the following amendment is made.—

Against : IC 53221 PAWAR NTFIN RAJARAM, SIGS

For : 16 DEC 2004

Read : 10 DEC 2004

JASWANT SINGH

Jt Dir  
MS-8C

ARMY BRANCH

CORRIGENDUM

No. 552, dated 29th October 2008—In Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India on 11-04-1998 under the heading, REGULAR ARMY - ARMY DENTAL CORPS (SHORT SERVICE COMMISSION) sub heading 'Lt to be Capt' against the name DS-11899A GK Tamuli

For : 19-08-1997

Read : 19-02-1997

In Ministry of Defence Gazette Notification published in the Gazette of India on 02-02-2002 under the heading, REGULAR ARMY - ARMY DENTAL CORPS (PERMANENT COMMISSION) sub heading 'Capt to be Major' against the name GK Tamuli (DR-10496A)

For : 19-08-2001

Read : 19-02-2001

DK TANEJA  
Maj Gen  
Addl DGDS

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2008  
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2008

